

VISHANUKRAMANK







विषयानुक्रमिका प्रारभ्यते

विषयः

तडागीमुद्राविधिः
 मांडूकीमुद्राविधिः
 मांडूकीमुद्राफलम्
 शांभवीमुद्राविधिः
 शांभवीमुद्राफलम्
 पंचधारणामुद्राः
 पार्थिवीधारणम्
 षट्कटाः
 धौतिः
 अन्तर्द्धौतिः
 वातसारः
 वातसारफलम्
 वारिसारः
 वारिसारफलम्
 बहिष्कृतधौतिः
 प्रधालनम्
 बाह्यकृतधौतिप्रयोगः
 दन्तधौतिः
 दन्तमूलधौतिः
 दन्तमूलधौतिफलम्
 जिह्वाशोधनम्
 हास्यधौतिः
 शिरःशोधनम्
 शिरःशोधनफलम्
 शिरःशोधनविधिः
 शिरःशोधनविधिः
 शिरःशोधनविधिः

पृष्ठम्

विषयः

पृष्ठम्

वासधौतिः १२
 वासधौतिफलम् १२
 मूलशोधनम् १३
 वस्तिप्रकरणम् १४
 जलवस्तिविधिः १४
 जलवस्तिफलम् १५
 स्थलवस्तिविधिः १४
 स्थलवस्तिफलम् १५
 नेतिविधिः १५
 नेतिफलम् १५
 लौलिकीविधिः १६
 त्रोटकविधिः १६
 त्रोटकफलम् १६
 कपालभातिविधिः १६
 वातक्रमकपालभातिः १७
 व्युत्क्रमकपालभातिः १७
 शीत्क्रमकपालभातिः १८
 २ द्वितीयोपदेशः ।
 आसनविधिः १८
 आसनभेदः १९
 सिद्धासनविधिः २०
 आसनविधिः २०
 आसनविधिः २१
 आसनविधिः २१



विषयः

नियमानुक्रमिका प्रारभ्यते

तडागीमुद्राविधिः

मांडूकीमुद्राविधिः

मांडूकीमुद्राफलम्

शांभवीमुद्राविधिः

शांभवीमुद्राफलम्

पंचधारणामुद्राः

पार्थिवीधारणम्

षट्कधाः

धौतिः

अन्तद्धौतिः

वातसारः

वातसारफलम्

वारिसारः

वारिसारफलम्

बहिष्कृतधौतिः

प्रथमालनम्

बाह्यकृतधौतिप्रयोगः

दन्तधौतिः

दन्तमूलधौतिः

दन्तमूलधौतिफलम्

जिह्वाशोधनम्

हामूलधारणः

प्राणसंयमनम्

संयमनधौतिः

संयमनधौतिफलम्

संयमनधौतिफलम्

पृष्ठम्

विषयः

पृष्ठम्

वासधौतिः

.... १२

वासधौतिफलम्

.... १२

मूलशोधनम्

.... १३

वस्तिप्रकरणम्

.... १४

जलवस्तिविधिः

.... १४

जलवस्तिफलम्

.... १४

स्थलवस्तिविधिः

.... १४

स्थलवस्तिफलम्

.... १५

नेतिविधिः

.... १५

नेतिफलम्

.... १५

लौलिकीविधिः

.... १६

त्रोटकविधिः

.... १६

त्रोटकफलम्

.... १६

कपालभातिविधिः

.... १६

वातक्रमकपालभातिः

.... १७

व्युत्क्रमकपालभातिः

.... १७

शीत्क्रमकपालभातिः

.... १८

२ द्वितीयोपदेशः ।

आसनविधिः

.... १८

आसनभेदः

.... १९

सिद्धासनविधिः

.... २०

सिद्धासनविधिः

.... २०

सिद्धासनविधिः

.... २१

सिद्धासनविधिः

.... २१

विषयानुक्रमाणिका ।

विषयः पृष्ठम् । विषयः

वज्रासनविधिः २२	भुजंगासन	
स्वस्तिकासनविधिः २२	योगासन	
सिंहासनविधिः २२		
गोमुखासनविधिः २३	मुद्राकथनप्र	
वीरासनविधिः २३	महामुद्राविधिः	
धनुरासनाविधिः २३	मुद्राफलम्	
मृतासनविधिः २४	नभोमुद्राविधिः	
गुप्तासनविधिः २४	उड्डियानबंधविधिः ३३
मत्स्यासनविधिः २४	उड्डियानबंधफलम् ३३
पश्चिमोत्तानआसनविधिः २४	जालधरबंधविधिः ३४
मत्स्येन्द्रासनविधिः २५	जालधरबंधफलम् ३४
गारक्षासनविधिः २५	मूलबंधविधिः ३४
उत्कटासनविधिः २६	मूलबंधफलम् ३५
संकटासनविधिः २६	महाबंधफलम् ३५
मयूरासनविधिः २६	महावेधविधिः ३५
कुक्कुटासनविधिः २७	महावेधफलम् ३६
कूर्मासनविधिः २७	खेचरमुद्राविधिः ३६
उत्तानकूर्मासनविधिः २७	खेचरमुद्राफलम् ३७
उत्तानमंडूकासनविधिः २७	विपरीतकरीमुद्राविधिः ३८
वृक्षासनविधिः २८	विपरीतकरीमुद्राफलम् ३९
मंडूकासनविधिः २८	योनिमुद्राविधिः ३९
गरुडासनविधिः २८	योनिमुद्राफलम् ४०
वृषासनविधिः २८	वज्रोणिमुद्राविधिः ४१
शलभासनविधिः २९	वज्रोणिमुद्राफलम् ४१
मकरासनविधिः २९	शक्तिचालिनीमुद्राविधिः ४२
उष्ट्रासनविधिः २९	शक्तिचालिनीमुद्राफलम्

विषयः	पृष्ठम्.	विषयः	पृष्ठम्.
तडागीमुद्राविधिः ४५	४ चतुर्थोपदेशः ।	
मांडूकीमुद्राविधिः ४५	प्रत्याहारप्रकरणम् ५९
मांडूकीमुद्राफलम् ४६	५ पंचमोपदेशः ।	
शांभवीमुद्राविधिः ४६	प्राणायामप्रयोगः ६०
शांभवीमुद्राफलम् ४६	स्थाननिदानम् ६१
पंचधारणामुद्राः ४७	कालनिर्णयः ६२
पार्थिवीधारणामुद्राविधिः ४८	मिताहारः ६४
पार्थिवीधारणामुद्राफलम् ४९	नाडीशुद्धिः ६७
आंभसीधारणामुद्राविधिः ४९	सूर्यभेदकुंभकविधिः ७४
आंभसीमुद्राफलम् ५०	सूर्यभेदकुंभकफलम् ७७
आग्नेयीमुद्राविधिः ५०	उज्जयीकुंभकविधिः ७७
आग्नेयीधारणामुद्राफलम् ५१	उज्जयीकुंभकफलम् ७८
वायवीधारणामुद्राविधिः ५१	शीतलीकुंभकविधिः ७८
वायवीधारणामुद्राफलम् ५२	शीतलीकुंभकफलम् ७८
आकाशीधारणामुद्राविधिः ५२	भस्त्रिकाकुंभकविधिः ७९
आकाशीधारणामुद्राफलम् ५३	भ्रामरीकुंभकविधिः ७९
अश्विनीमुद्राविधिः ५३	मूर्च्छाकुंभकविधिः ८१
अश्विनीमुद्राफलम् ५४	केवलीकुंभकविधिः ८१
पाशिनीमुद्राविधिः ५४	६ षष्ठोपदेशः ।	
पाशिनीमुद्राफलम् ५४	ध्यानयोगः ८५
काकीमुद्राविधिः ५४	स्थूलध्यानविधिः ८५
मातंगिनीमुद्राविधिः ५५	प्रकारांतरस्थूलध्यानविधिः ८७
मातंगिनीमुद्राफलम् ५५	ज्योतिर्ध्यानविधिः ८९
भुजंगिनीमुद्राविधिः ५६	प्रकारांतरेण ज्योतिर्ध्यानविधिः ८९
भुजंगिनीमुद्राफलम् ५६	सूक्ष्मध्यानविधिः ९०
सर्वमुद्राफलम् ५९		

विषयः	पृष्ठम्.	विषयः	पृष्ठम्.
७ सप्तमोपदेशः ।		भक्तियोगसमाधिविधिः ९५
समाधियोगविधिः ९१	राजयोगसमाधिविधिः ९५
समाधिभेदाः ९२	समाधियोगफलम् ९५
ध्यानयोगसमाधिः ९३	८ अष्टमोपदेशः ।	
नादयोगसमाधिविधिः ९३	श्रीराधाचंद्र वडे चौबेजी कृत	
रसानंदसमाधिविधिः ९४	परिशिष्टग्रंथः ९८
लयसिद्धिसमाधिविधिः ९४		

इति घेरण्डसंहितास्थविषयानुक्रमणिका समाप्ता ।

उस्तक मिलनेका ठिकाना—

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,

“ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापाखाना,

कल्याण-मुंबई

ॐ हरिं वंदे ।

अथ

भाषानुवादसहिता ।

घेरण्डसंहिता ।

(योगशास्त्र)

एकदा चण्डकापालिर्गत्वा घेरण्डकुट्टिमम् ॥

प्रणम्य विनयात् भक्त्या घेरण्डं परिपृच्छति ॥ १ ॥

नत्वा कुंजविहारिणं व्रजवधूवक्रांबुजस्वादकं

श्रीनारायणपादपद्मयुगलं वंदे द्विरेफो ह्यहम् ॥

घेरंडेन कृता च योगसुलभा ज्ञानप्रदा ताप्यंते

टीका तद्व्रजभाषया सुकविना श्रीराधिकाब्जेन या ॥ १ ॥

अर्थ—एक समय चण्डकापालि (नामक कोई एक योगा-
भिलाषी) घेरण्ड (नामक एक बड़े योगीश्वर) की कुटी
(स्थान) को गयो और विनयपूर्वक भक्तिसहित प्रणाम
(नमस्कार) करके घेरण्ड (ऋषि) से पूछने लग्यो ॥ १ ॥

घटस्थयोगं योगेश तत्त्वज्ञानस्य कारणम् ॥

इदानीं श्रोतुमिच्छामि योगीश्वर वद प्रभो ॥ २ ॥

अर्थ—कि हे योगेश (योगियोंके मालिक) ! तत्त्व-
ज्ञानका कारण घटस्थ (शरीरस्थ) योग है सो या समय
मेरी इच्छा वाके सुनवेको हुई है हे योगेश्वर ! हे प्रभो !
आप कृपा करके उसे मोसों कहौ ॥ २ ॥

॥ घेरण्ड उवाच ॥

साधु साधु महाबाहो यस्मात्त्वं परिपृच्छसि ॥

कथयामि ह ते वत्स सावधानाऽवधारय ॥ ३ ॥

अर्थ—घेरण्ड ऋषि बोले कि हे महाबाहो (अर्थात् बाहुबलशालिन् क्षत्रियवंशभूषण) ! जो तुमने मोसों पूछा तासों मैं तुमको साधुवाद (अर्थात् धन्यवाद) देता हूँ हे वत्स (बालक) ! मैं तोसों कहों हों ताहि तू सावधान होके सुन और धारण कर ॥ ३ ॥

नास्ति मायासमं पापं नास्ति योगात्परं बलम् ॥

नास्ति ज्ञानात्परो बंधुर्नाहङ्कारात्परो रिपुः ॥ ४ ॥

अर्थ—माया (झूठ) के समान कोई पाप नहीं है और योगके परे कोई बल नहीं है और ज्ञानसों परें कोई बंधु (भाई) नहीं है और अहंकारके समान कोई वैरी है नहीं ॥ ४ ॥

अभ्यासात्कादिवर्णानि यथाशास्त्राणि बोधयेत् ॥

तथा योगं समासाद्य तत्त्वज्ञानं च लभ्यते ॥ ५ ॥

अर्थ—जैसे अभ्यास करते करते ककारादि वर्ण (अक्षर) जान पडे हैं और उनके परिचयके पीछे बहुत भौतिके शास्त्रोंमें बोध हो जात है याही प्रकार योगके अभ्यास करते करते तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥

सुकृतैर्दुष्कृतैः कार्यैर्जायते प्राणिनां घटः ॥

घटादुत्पद्यते कम घटीयंत्रं यथा भ्रमेत् ॥ ६ ॥

ऊर्ध्वाधो भ्रमते यद्वत् घटीयंत्रं गवां वशात् ॥

तद्वत् कर्मवशाज्जीवो भ्रमते जन्ममृत्युभिः ॥ ७ ॥

अर्थ—भले और बुरे काम करवेसों प्राणियोंका अंग उत्पन्न होता है और वा शरीरसे फिर काम (कर्म) उत्पन्न होता है जैसे कि घटीयंत्र उलट पलट कभी नीचे कभी ऊँचेकी और कलोंके वश हो घूमता है इसी भाँति उत्तम मध्यम अधम कर्मोंके वश हो वह जीवभी जन्म और मृत्युके फेरमें पडा घूमता है तो फिर किस उपायसे वह मिट सकता है ॥ ६ ॥ ७ ॥

इसपर दृष्टान्त देते हैं ।

आमं कुम्भमिवाम्भस्थो जरियमाणः सदा घटः ॥

योगानलेन संदह्य घटशुद्धिं समाचरेत् ॥ ८ ॥

अर्थ—यह अंग ऐसा गलायमान है जैसे कच्चे घडेमें जल भरवेसों वह घडा गल जाता है परन्तु जब वाको अग्निमें पकाय लेते हैं तब वह घडा कभी नहीं गलता इसी भाँति या शरीरको योगरूपी अग्निसे अच्छीभाँति पकायके पक्की करनी चाहिये ८ ॥

अथ सप्तसाधनम् ।

शोधनं दृढता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम् ॥

प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्थसप्तसाधनम् ॥ ९ ॥

अर्थ—घेरण्ड ऋषि कहते हैं कि योगाभ्यास करनेवालेको शरीरके सात साधन हैं। जैसे (शोधन १), देहको शुद्ध करना, (दृढता २) मजबूती, (स्थैर्य ३) एकसमान सदा देहका स्थिर रहना, (धैर्य ४) कभी घबडाना नहीं, (लाघव ५) हलकापन, (प्रत्यक्ष ६) आँख आदि इन्द्रियोंसे देखना छूना आदि, (निर्लिप्त ७) सब चीजका व्यौहार वर्तना परन्तु सबसे अलग रहना ॥ ९ ॥

षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्दृढम् ॥
 मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता ॥ १० ॥
 प्राणायामाल्लाघवं च ध्यानात्प्रत्यक्षमात्मनि ॥
 समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः ॥ ११ ॥

अर्थ—शोधन छः कर्मोंसे होता है । आसनोंसे दृढता होती है । मुद्राओंसे स्थिरता होती है । प्रत्याहारसे धैर्य होता है । प्राणायामसे लाघवता (हलकापन) होता है । ध्यानसे अपने आत्मामें जो चाहै प्रत्यक्ष हो जाता है । इसी प्रकार साधनोंसे अन्तमें अवश्य मुक्ति हो जाती है इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ १० ॥ ११ ॥

अब उन सातों साधनोंमें प्रथम शोधन जो छः कर्मोंसे होता है उन षट्कर्मोंको कहते हैं ।

अथ षट्कर्माणि ।

धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिलौलिकी त्राटकं तथा ॥
 कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत् ॥ १२ ॥

अर्थ—इन छः कर्मोंसे शोधन होता है वे ये हैं
 (धौती १) (वस्ति २) (नेति ३) (लौलिकी ४)
 (त्राटक ५) (कपालभाति) ६ इति ॥ १२ ॥

अथ धौतिः ।

अन्तर्द्धौतिर्दन्तधौतिर्हृद्धौतिर्मूलशोधनम् ॥

धौतिं चतुर्विधां कृत्वा घटं कुर्वन्ति निर्मलम् ॥ १३ ॥

अर्थ—धौति चार प्रकारकी है एक तौ अन्तर्द्धौति अर्थात्
 (अंगके भीतर झक करना) दूसरी दन्तधौति (दांतोंको

वच्छ करना) तीसरी हृद्दौति (हृदयको निर्मल करने) चौथे
पूल शोधन अर्थात् (नाभिको झक करने) या प्रकारकी
दौतिसों अंगकों निर्मल (मलरहित) करने चाहिये ॥ १३ ॥

अथ अन्तर्दौतिः ।

वातसारं वारिसारं वह्निसारं बहिष्कृतम् ॥

घटस्य निर्मलार्थाय अन्तर्दौतिश्चतुर्विधा ॥ १४ ॥

अर्थ—अन्तर्दौतिभी चार प्रकारकी हैं एक तो वातसार
(वायुकों त्यागनों) दूसरे वारिसार (जलकों त्यागनों) तीसरे
वह्निसार (अग्निसार आगे कहेंगे) चौथे बहिष्कृत (यहभी
आगे कहेंगे) यह जो घट (अंगके निर्मल अर्थात् शुद्धि
करवेकी) चार प्रकारकी अन्तर्दौति हैं तिनमें पहले वातसार
कहे हैं ॥ १४ ॥

अथ वातसारः ।

काकचंचुवदास्येन पिबेद्रायुं शनैः शनैः ॥

चालयेदुदरं पश्चाद्दूर्तमना रेचयेच्छनैः ॥ १५ ॥

अर्थ—अपने मुखकों कऊआकी चोंचके आकार (समान)
करके अर्थात् दोनों ओठोंको सिकोडके धीरे धीरे वायुको
पीकर पेटमें वाकों चलाय अर्थात् (फिराकर) फिर धीरे धीरे
वाको मुखसों निकारे याकों वातसार कहे हैं ॥ १५ ॥

अथ वातसारफलम् ॥

वातसारं परं गोप्यं देहनिर्मलकारणम् ॥

सर्वरोगक्षयकरं देहानलविवर्द्धनम् ॥ १६ ॥

अर्थ-अब वातसारको फल कहें हैं । वातसार यह परम (बहुत) गोप्य (गुप्त) है और देह निर्मल (शुद्धि) करवे-
वारो है और सबरे रोगनकों क्षय (नाश) करे है और देहकी
अग्निकों बढायवेवारौ है ॥ १६ ॥

अथ वारिसारः ।

आकंठं पूरयेद्वारि वक्रेण च पिबेच्छनैः ॥

चालयेदुदरेणैव चोदराद्देचयेदधः ॥ १७ ॥

अर्थ-मुखसों धीरें धीरें कंठतक पानी पीकर फिर वाकों
पेटमें फिरावें और वाकों गुदा (गौंड) सो निकार देवे याकों
वारिसार कहें हैं ॥ १७ ॥

अथ वारिसारफलम् ।

वारिसारं परं गोप्यं देहनिर्मलकारकम् ॥

साधयेत्तं प्रयत्नेन देवदेहं प्रपद्यते ॥ १८ ॥

अर्थ-वारिसारभी बहुत गुप्त है और यह देहकों निर्मल
(शुद्ध) करवेवारौ है याकों बडे यत्नसो साधन करवेसों देव-
देह प्राप्त होई है ॥ १८ ॥

नाभिग्रंथिं मेरुपृष्ठे शतवारं च कारयेत् ॥

अग्निसारमियं धौतियोंगिनां योगसिद्धिदा ॥ १९ ॥

उदरामयजं त्यक्त्वा जठराग्निं विवर्द्धयेत् ॥

एषा धौतिः परा गोप्या देवानामपि दुर्लभा ॥

केवलं धौतिमात्रेण देवदेहं भवेद्भ्रुवम् ॥ २० ॥

अर्थ—टूँडीकी गाँठको सौवार मेरुपृष्ठमें लगावे अर्थात् (पेटको ऐसा फुलावे खलावे) कि नाभि घुसाकर पीठकी हड्डीमें लगानों यह अग्निसार धौति कही जाय है जो योगियोंको सिद्धिकी देववारी है ॥ १९ ॥ और यह पेटके रोगनको दूर करे और जठराग्निको बढावे है और यह धौति बहुत गुप्त है अर्थात् (बहुत कठिन है) और देवताकोभी दुर्लभ है अर्थात् (दे तानकोभी नहीं मिले) ॥ और केवल याही धौतिके साधनमात्रसो देवदेह हो जाय है ॥ २० ॥

अथ वहिष्कृतधौतिः ।

काकीमुद्रां शोधयित्वा पूरयेदुदरं महत् ॥ २१ ॥

धारयेदद्ध्रियामंतु चालयेदधोवर्त्मना ॥

एषा धौतिः परा गोप्या न प्रकाश्या कदाचन ॥ २२ ॥

अर्थ—पहिले कौवाकी चोंचके समान मुख करके ऐसी वायु पान करे, जासो पेट भरजाइ ॥ २१ ॥ फिर वा पवनके डेढ घंटा पेटमें रखि पाछे गुदा (गांड) के द्वारा बाहर निकारे यहभी धौति बहुत कठिन है याको काऊको जाहिर न करनी ॥ २२ ॥

अथ प्रक्षालनम् ।

नाभिमग्नो जले स्थित्वा शक्तिनाडीं विसर्जयेत् ॥

कराभ्यां क्षालयेन्नाडीं यावन्मलविसर्जनम् ॥ २३ ॥

तावत्प्रक्षाल्य नाडीं च उदरे वेशयेत्पुनः ॥

इदं प्रक्षालनं गोप्यं देवानामपि दुर्लभम् ॥

केवलं धौतिमात्रेण देवदेहां भवेद्द्रुवम् ॥ २४ ॥

अर्थ—नाभि (टूंडी) डूब जाय ऐसे गहरे जलमें ठाडौ हिकें शक्तिनाडी (त्रिवली) कों बाहर करके जबतक मल दूर न होई तबतक बहुत धौवै शुचि भये पीछे फिर पेटके भीतर बैठार दे या प्रक्षालनकी विधि बडी कठिन है और देवतानकोभी दुर्लभ है ॥ और याके बल धौति मात्रसेही निश्चय देवदेह होजाइ है ॥ २३ ॥ २४ ॥

अथ बहिष्कृतधौतिप्रयोगः ।

यामार्द्धं धारणं शक्तिं यावन्न धारयेन्नरः ॥

बहिष्कृतमहद्भौतिस्तावच्चैव न जायते ॥ २५ ॥

अर्थ—जबतक साधक आधे पहरतक स्वास न रोक सकै तबतक यह महाधौतिको धारण न करै ॥ क्योंकि उस शक्तिके विना अधम होनेका भय रहता है ॥ २५ ॥

अथ दन्तधौतिः ।

दन्तमूलं जिह्वामूलं रंध्रं च कर्णयुग्मयोः ॥

कपालरंध्रं पंचैते दन्तधौतिं विधीयते ॥ २६ ॥

अर्थ—दन्तधौति पांच तरहकी हैं जैसे (दागोंकी जडको धोना १) (जीभकी जडको धोना २) कानके दोनों छेदोंको धोना ३) (तथा कपालके छेदको धोना ॥ ५) ॥ २६ ॥

अथ दन्तमूलधौतिः ।

खादिरेण रसेनाथ मृत्तिकया च शुष्कया ॥

मार्जयेद्दन्तमूलं च यावत्किल्बिषमाहरेत् ॥ २७ ॥

अर्थ—खैर रसमें अथवा विशुद्ध सूखी माटीमें दांतोंकी

जड़कौ झक करे और जबतक मैल न दूर होइ तबतक कुल्ला कर कर फिर फिर झक करै ॥ २७ ॥

अथ दन्तमूलधौतिफलम् ।

दन्तमूलं परा धौतियोगिनां योगसाधने ॥

नित्यं कुर्यात्प्रभाते च दन्तरक्षाय योगवित् ॥

दन्तमूलं धारणादिकार्येषु योगिनां मतम् ॥ २८ ॥

अर्थ—योगियोंके योगसाधनमें दन्तमूल धौति (अर्थात् दाँतका धोना) सबसे उत्तम काम है । यासों योगके जाननेवाले नर नित्यप्रति प्रातः समय दाँतोंकी रक्षाके लिये इस दातौन आदि विधिकौ करनो योगियोंका मुख्य काम है २८ ॥

अथ जिह्वाशोधनम् ।

अथातः संप्रवक्ष्यामि जिह्वाशोधनकारणम् ॥

जरामरणरोगादीन् नाशयेद्दीर्घलम्बिका ॥ २९ ॥

अर्थ—दन्तशोधनके पीछे जिह्वा (जीभ) शोधन कहे हैं । जिह्वाके शोधनसे जीभ लम्बी होइ है और तासों जरा (बुढापा) अर्थात् मौत तथा और सब रोग दूर हो जाई हैं ॥ २९ ॥

अथ जिह्वामूलधौतिः ।

तर्जनी मध्यमाऽनामा अंगुलित्रययोगतः ॥

वेशयेद्गुल्ममध्ये तु मार्जयेद्गुल्मिकाजडम् ॥

शनैः शनैर्मार्जयित्वा कफदोषं निवारयेत् ॥ ३० ॥

अर्थ—(तर्जनी) अंगुठाके पासकी अंगुली मध्यमा (बीचकी अंगुली) अनामिका (छोटी अंगुलीके पासकी)

ये तीन अंगुलियोंको गलेके भीतर धसेरके जीभकी जड (मूल) तब बार बार घिसे और धीरे धीरे जो कुछ कफका दोष होय उसको निकाल गेरे और यह कफके दोषको दूर करै हैं ॥ ३० ॥

मार्जयेन्नवनीतेन दोहयेच्च पुनः पुनः ॥

तदग्रं लोहयंत्रेण कर्षयित्वा शनैः शनैः ॥ ३१ ॥

अर्थ—फिर माखनको जीभमें लगाकर रोजही रोज बार बार दुहे और पीछे लोहेके चीमटासों उस जीभका अग्रभाग पकडके धीरे धीरे रोज खेंचौ करै ॥ ३१ ॥

नित्यंकुर्यात्प्रयत्नेन खेरुदयकेऽस्तके ॥

एवं कृते च नित्ये च लम्बिका दीर्घतां व्रजेत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—प्रदिदिन सूर्यके उदय और अस्तसमयमें यह धौति ताकौ अभ्यास करै यदि इसी प्रकार निचही निच यह विधि करी जाय तौ जीभ लम्बी हो जायगी ॥ ३२ ॥

अथ कर्णधौतिः ।

तर्जन्यनामिकायोगान्मार्जयेत्कर्णरंध्रयोः ॥

नित्यमभ्यासयोगेन नादान्तरं प्रकाशयेत् ॥ ३३ ॥

अर्थ—तर्जनी (अंगूठाके पासकी अंगुली) और अनामिका (छोटी अंगुलीके पासकी अंगुली) के योगसों कानोंके दोनों छेदोंको प्रतिदिन शुद्ध करै तौ एक भाँतिका विशुद्ध नाद प्रगट हुवा करता है ॥ ३३ ॥

अथ कपालरंध्रशोधनम् ।

बद्धांगुष्ठेन दक्षेण मार्जयेद्भ्रालरंध्रकम् ॥

एवमभ्यासयोगेन कफदोषं निवारयेत् ॥ ३४ ॥

नाडी निर्मलतां याति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥

निद्रान्ते भोजनान्ते च दिवान्ते च दिने दिने ॥ ३५ ॥

अर्थ—दहने हाथके अँगूठेके द्वारा प्रतिदिन सोयके उठै तब और भोजनके अंतमें और सूर्यास्तके समयमें कपालरंध्र अर्थात् शिरके बीचमें जो गढेला है उसे जलहीसों साफ करै और या प्रकारके अभ्याससों भीतरी कफ ताके दोष नाश हो जाय हैं । और नाडियाँ निर्मल हो जाती हैं और दृष्टि (निगह) दिव्य (साफ) हो जाती है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

हृद्भौतिं त्रिविधं कुर्यादंडवमनवाससा ॥ ३६ ॥

अर्थ—हृद्भौति अर्थात् हृदयको झुका करनेकी विधि, तीन तरहकी है (दंडधौति १) (वमनधौति २) (वासधौति ३) ३६ ॥

रंभादंडं हरिद्राया वेत्रदंडं तथैव च ॥

हृन्मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरेच्छनैः ॥ ३७ ॥

अर्थ—केलाके बीचकों जो (सारभाग वाकौ दंडा) वा हरदीको दंडा अथवा चीकने वेतको दंडा बनायके हृदयके बीच धीरें धीरें प्रवेश करके फिर धीरें धीरें बाहर निकारे याको हृद्भौति कहते हैं ॥ ३७ ॥

अथ दंडधौतिः ।

कफपित्तं तथा क्लेदं रेचयेदूर्ध्ववर्त्मना ॥

दंडधौतिविधानेन हृद्रोगं नाशयेद्ध्रुवम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—इस दंडधौतिके करवेसों कफ और पित्त तथा क्लेद

(उकलाहट) आदि विकारी मल मुखके द्वारा हृदयसों निकाल बाहर होते हैं जासों हृदयके समस्त रोग निश्चय नाश होय जाय हैं ॥ ३८ ॥

अथ वमनधौतिः ।

भोजनान्ते पिबेद्भारि चाकंठं पूर्णितं सुधीः ॥ ३९ ॥

ऊर्ध्वदृष्टिं क्षणं कृत्वा तज्जलं वमयेत्पुनः ॥

नित्यमभ्यासयोगेन कफपित्तं निवारयेत् ॥ ४० ॥

अर्थ—बुद्धिवान् पुरुष भोजनके अंतमें कंठतक जल पीलेवे फिर थोड़ी देरतक ऊपरकी ओर देखते रहै फिर थोड़ी देरसें वा जलको वमन करदेवे इसीको वमनधौति कहते हैं । इस वमन धौतिका जो प्रतिदिन अभ्यास करवेसों कफ और पित्तके (दोषोंको) दूर करे है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

अथ वासधौतिः ।

चतुरंगुलविस्तारं सूक्ष्मवस्त्रं शनैर्गिलेत् ॥

पुनः प्रत्याहरेदेतत् प्रोच्यते धौतिकर्मकम् ॥ ४१ ॥

अर्थ—चार अंगुलका चौड़ा और (कभसों कम पाँच हाथ) लम्बा महीन कपडा लेकर धीरे धीरे निगलजाय फिर वाकें धीरे धीरे निकाल बाहर करै इसको वासधौति कहते हैं ॥ ४१ ॥

अथ वासधौतिफलम् ।

गुल्मज्वरप्लीहकुष्ठं कफपित्तं विनश्यति ॥

आरोग्यं बलपुष्टिश्च भवेत्तस्य दिने दिने ॥ ४२ ॥

अर्थ—वासधौतिके अभ्यास करनेसे गुल्मरोग ज्वररोग

प्लीहरोग कुष्ठरोग तथा कफ और पित्तके रोगोंको नाश करता है और आरोग्य रखता तथा बल पुष्टाई (अंगसुख) दिन प्रति दिन देता है ॥ ४२ ॥

अथ मूलशोधनम् ।

अपानक्रूरता तावद्यावन्मूलं न शोधयेत् ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मूलशोधनमाचरेत् ॥ ४३ ॥

अर्थ—जबतक मूल शोधन (अर्थात् गुदाके द्वारा) साफ नहीं होता तबतक अपानकी क्रूरता अर्थात् (कर्डापन बना रहता है) और गुदाके वायु (पवन) कष्टसे निकलता है । इससे सब प्रकारके यत्नकर मूलशोधन करना चाहिये ॥ ४३ ॥

पीतमूलस्य दंडेन मध्यमांगुलिनापि वा ॥

यत्नेन क्षालयेत् गुह्यं वारिणा च पुनः पुनः ॥ ४४ ॥

अर्थ—कच्ची हरदीकी जडसे वा मध्यमा (बीचकी) अंगुलीसे बार बार यत्नके सहित जलद्वारा गुदाका द्वार साफ करना चाहिये ॥ ४४ ॥

वारयेत्कोष्ठकाठिन्यमामाजीर्णं निवारयेत् ॥

कारणं कान्तिपुष्टयोश्च दीपनं वह्निमंडलम् ॥ ४५ ॥

अर्थ—मूलशोधनके द्वारा कोठों कठिन (अर्थात् पेटके भीतरकों कर्डापन) तथा आमकी अजीर्णता दूर हो जाय है और कान्ति (तेज) कौं करवैवारौ तथा पुष्टता देहमें दे-वैवारौ तथा तथा जठराग्निकों बढायवैवारौ है ॥ ४५ ॥

अथ वस्तिप्रकरणम् ।

जलवस्तिः शुष्कवस्तिर्वस्तिः स्याद्विविधा स्मृता ॥

जलवस्तिं जले कुर्याच्छुष्कवस्तिं सदा क्षितौ ॥ ४६ ॥

अर्थ—वस्ति (कर्म) दो प्रकारकी है जलवस्ति और शुष्क (सूखी) वस्ति जलवस्ति तो जलसों होई है और शुष्क वस्ति थलमें साधन करनी चाहिये ॥ ४६ ॥

अथ जलवस्तिविधिमाह ।

नाभिमग्रजले पायुं न्यस्तवानुत्कटासनम् ॥

आकुंचनं प्रसारं च जलवस्तिं समाचरेत् ॥ ४७ ॥

अर्थ—टुंडी डूब जाय इतने जलमें बैठकर उत्कटआसन (आगे कहेंगे) बैठकर गुदादेशकों सकोडे और फैलावे इसको जलवस्ति कहते हैं ॥ ४७ ॥

अथ जलवस्तिफलम् ।

प्रमेहं च उदावर्तं क्रूरवायुं निवारयेत् ॥

भवेत् स्वच्छंददेहश्च कामदेवसमो भवेत् ॥ ४८ ॥

अर्थ—जलवस्तिके साधनसे प्रमेहरोग उदावर्तरोग क्रूरवायु (कुपित पवन) इनको दूर करे और देह (अंग) अपनेही काबूमें रहे और कामदेवके समान रूपवान् हो जाता है ॥ ४८ ॥

अथ स्थलवस्तिविधिमाह ।

वस्तिं पश्चिमोत्तानेन चालयित्वा शूनैरधः ॥

अश्विनीमुद्रया पायुमाकुंचयेत्प्रसारयेत् ॥ ४९ ॥

अर्थ—थलहीमें पीठकी ओर उत्तान होकर पड़े ओर क्रमः

शः गुदाके द्वारको चलावै इसी भाँति अश्विनसिद्धा (जो आगे कहेंगे) उसके द्वारा गुदाको सकोडे और फैलावे (चौडी) करै ऐसा करनेसे थलवस्ति साधीजाय ॥ ४९ ॥

अथ स्थलवस्तिफलम् ।

एवमभ्यासयोगेन कोष्ठदोषं न विद्यते ॥

विवर्द्धयेज्जाठराग्निमामवातं विनाशयेत् ॥ ५० ॥

अर्थ—इसी भाँति थलवस्तिके साधन करवेसों कोष्ठ (कोठे) में दोष (वात) पित्त कफादि नहीं रहते और (उदरमें) जठराग्नि है वह बढ जाती है और आमवा-
तरोगभी नाश होइ है ॥ ५० ॥

अथ नेतिविधिमाह ।

वितस्तिमानं सूक्ष्मसूत्रं नासानाले प्रवेशयेत् ॥

मुखाग्निर्वमयेत्पश्चात् प्रोच्यते नेतिकर्मकम् ॥ ५१ ॥

अर्थ—बीताभरका महीन डोरा नाकके छेदोंमें होकर डाले पीछे उसको मुखके द्वारा निकास करै । इसको नेति-
कर्म कहते हैं ॥ ५१ ॥

अथ नेतिफलमाह ।

साधनान्नेतिकमाणि खेचरीं सिद्धिमाप्नुयात् ॥

कफदोषं विनश्यन्ति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ ५२ ॥

अर्थ—नेतिकर्मके साधन करनेसो खेचरी (आकाशको जानेआने) की सिद्धि हो जाती है और कफके दोषको नाश करै है और दिव्यदृष्टि (अर्थात् न देखती चीजभी देख-
सके) इति ॥ ५२ ॥

अथ लौलिकीविधिमाह ।

अमन्दवेगे तुन्दं च भ्रामयेदुभपार्श्वयोः ॥

सर्वरोगान्निहन्तीह देहानलविवर्द्धनम् ॥ ५३ ॥

अर्थ—अति प्रबल वेगसों पेटकों दोनों बगल घुमावे इसीका नाम लौलिकी योग है यह सब भाँतिके रोगोंको नाश करै है और देहस्थ जो अग्नि है ताकों बढ़ावै है अर्थात् अन्नको पचावे है ॥ ५३ ॥

अथ त्रोटकविधिमाह ।

निमेषोन्मेकं त्यक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत् ॥

यावदाश्रूणि पतन्ति त्रोटकं प्रोच्यते बुधैः ॥ ५४ ॥

अर्थ—पलकका भाँजना बंद करके किसी छोटी चीजकी ओर जबतक कि आँसू न गिरें इकटक देखता रहै याहीकों बुद्धिमान् त्रोटक योग कहते हैं । इति ॥ ५४ ॥

अथ त्रोटकफलमाह ।

एवमभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते ध्रुवम् ॥

नेत्ररोगा विनश्यन्ति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ ५५ ॥

अर्थ—इसी प्रकार त्रोटक (योग) के अभ्यास करवैसों शांभवी (मुद्रा) सिद्धि हो जाय है और नेत्रके सब रोगनों नाश करे हैं और दि य ष्टि होय है ॥ ५५ ॥

अथ कपालभातिविधिः ।

वातक्रमेण व्युत्क्रमेण शीत्क्रमेण विशेषतः ॥

भालभातिं त्रिधा कुर्यात् कफदोषं निवारयेत् ॥ ५६ ॥

अर्थ—कपालभाति योग तीन प्रकारका है । (वातक्रम)
(व्युत्क्रम) और (शीत्क्रम) साधनों कफके सबरे रोग
नाश होय है । इति ॥ ५६ ॥

अथ वातक्रमकपालभातिः ।

इडया पूरयेद्वायुं रेचयेत् पिंगलां पुनः ॥

पिंगलया पूरयेद्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत् ॥ ५७ ॥

अर्थ—इडा अर्थात् (नाकके वायें छेद) के द्वारा पवनको
खँचके भरै और पिंगला अर्थात् (दहने नाकके छेदसों)
निकारै याही प्रकार दहने नाकके छेदसों पवन भरकर फिर वायें
छेदसों निकार देवे । इसे वातक्रमकपालभाति कहें हैं । इति ५७

पूरकं रेचकं कृत्वा वेगेन न तु चालयेत् ॥

एवमभ्यासयोगेन कफदोषं निवारयेत् ॥ ५८ ॥

अर्थ—जब पूरक अथवा रेचक अर्थात् श्वात्त खँचै और
निकारै तब जल्दी न करै क्रमसों धीरें धीरें साथै ऐसे अभ्यास
(योग) करनेसों कफके दोष दूर करै है ॥ ५८ ॥

अथ व्युत्क्रमकपालभातिः ।

नासाभ्यां जलमाकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत् ॥

पायं पायं व्युत्क्रमेण श्लेष्मदोषं निवारयेत् ॥ ५९ ॥

अर्थ—दोनों नाकके छेदोंसे जलको खँचकर फिर मुखकी
राहसों गेरतौ जाय और मुखकी राहसेभी जल पीपीके फिर
जल नाककी राह गेरतौ जाय इसको व्युत्क्रम कपालभाति
कहते हैं और कफके सबरे दोषोंको दूर करै है । इति ॥ ५९ ॥

अथ शीत्क्रमकपालभातिः ।

शीत्कृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासानालैर्विरेचयेत् ॥

एवमभ्यासयोगेन कामदेवसमो भवेत् ॥ ६० ॥

न जायते च वार्द्धक्यं जरा नैव प्रजायते ॥

भवेत् स्वच्छंददेहश्च कफदोषं निवारयेत् ॥ ६१ ॥

इति श्रीघेरण्डसंहितायां महर्षिघेरण्डनृपचण्डकापा-

लिसंवादे षट्कर्मसाधनं नाम प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥

अर्थ—मुखसों शीत्कार कर (सुर सुर) कर पानी पीनें और वाकों नाकके छेदोंसे गिराय देवे इसको शीत्क्रम कपाल-भाति कहते हैं । या प्रकार योगाभ्यास करवेसो मनुष्य काम-देवके समान (कांतिवारौ) हो जाय । और बुढापेकी निर्बलता शरीरमें नहीं आइ सकै और देह अपने काबूमें रहे है और कफके सब दोषनकों दूर करै है । इति ॥ ६० ॥ ६१ ॥

इति श्रीघेरण्डसंहितायां चारों संप्रदायि वामन राजादिके गुरु बडे

चौवे श्री ५ कल्याणचंदात्मज राधाचंद कल्पित ब्रज भाष्य-

भाषानुवादसहित षट्कर्मसाधनं नाम प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥

द्वितीयोपदेशः २ ।

अथासनविधिमाह ।

आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः ॥

चतुरशीतिलक्षाणि शिवेन कथितं पुरा ॥ १ ॥

तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोनं शत कृतम् ॥

तेषां मध्ये मर्त्यलोके द्वात्रिंशदासनं शुभम् ॥ २ ॥

अर्थ—घेरण्डमहाराजनें कहेयौ कि धरतीमें जितने जीवजन्तु हैं उतनेही आसन हैं और शास्त्रकारोंनें अखीर दर्जा चौराशी लाख योनि संख्या ठहराई है याहीसों प्रथम शिव (महादेव) जीनें चौरासी लाख आसन कहे हैं परंतु उनमें चौराशि सौ, और कमसे कम चौराशी आसन श्रेष्ठ हैं उनमेंसोंभी केवल बत्तीस आसन मनुष्यलोकके लिये अच्छे हैं ॥ १ ॥ २ ॥

अथासनभेदाः ।

सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकम् ॥

सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च ॥ ३ ॥

मृतं गुप्तं तथा मत्स्यं मत्स्येंद्रासनमेव च ॥

गोरक्षं पश्चिमोत्तानं उत्कटं संकटं तथा ॥ ४ ॥

मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा चोत्तानकूर्मकम् ॥

उत्तानमंडुकं वृक्षं मंडूकं गरुडं वृषम् ॥ ५ ॥

शलभं मकरं उष्ट्रं भुजंगं च योगासनम् ॥

द्वात्रिंशदासनानि तु मर्त्यलोके च सिद्धिदम् ॥ ६ ॥

अर्थ—सिद्धासन १, पद्मासन २, भद्रासन ३, मुक्तासन ४, वज्रासन ५, स्वस्तिकासन ६, सिंहासन ७, गोमुखासन ८, वीरासन ९, धनुरासन १०, मृतासन ११, गुप्तासन १२, मत्स्यासन १३, मत्स्येंद्रासन १४, गोरक्षासन १५, पश्चिमोत्तानासन १६, उत्कटासन १७, संकटासन १८, मयूरासन १९,

कुक्कुटासन २०, कूर्मासन २१, उत्तानकूर्मासन २२, उत्तान-
मण्डूकासन २३, वृक्षासन २४, मंडूकासन २५, गरुडासन २६,
वृषभासन २७, शलभासन २८, मकरासन २९, उष्ट्रासन
३०, भुजंगासन ३१, योगासन ३२ ये ३२ वत्तीस आसन
मनुष्यलोकके लिये सिद्धि देनेवाले हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

अथ सिद्धासनविधिः ।

योनिस्थानकमंग्रिमूलघटिकं संपीडय गुल्फेतरम् ।
मेद्रे संप्रणिधाय तं तु चिबुकं कृत्वा हृदि स्थायिनम् ॥
स्थाणुः संयमितौद्रियोऽचलदृशा पश्यन्भ्रुवोरंतरम् ।
मोक्षं चैव विधीयते फलकरं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ ७ ॥

अर्थ—जितेंद्रिय साधक पांयकी एडीको योनिस्थान (अंड-
कोश) के नीचे भिडावै और फिर दूसरी एडी (गुल्फ)
लिंगके ऊपर धरै फिर डाढीको छातीमें लगावै फिर इंद्रियनको
(रोक) साधकर अर्थात् एक ध्यानमें रखकर दृष्टिकों एकज-
गहमें राखकर भौंहके बीचके स्थानकों देखे या प्रकार करवेसों
सिद्धासन कन्यो जाय है और यह आसन (मोक्ष) फल तथा
सर्व सुखको देनेवारो है ॥ ७ ॥

अथ पद्मासनविधिः ।

वामोरूपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वामं तथा ।
दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना कृत्वा कराभ्यां दृढम् ॥
अंगुष्ठे हृदये निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकयेत् ।
एतद्व्याधिविनाशकारणपरं पद्मासनं चोच्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—दहने पाँयकों बाँई जाँघपर धर और दाहनी जाँघपर बायो पाँय धरकर और पीछेकी ओरसे दाँये हाँथसों दाँये पाँयके अँगूठाको और बाँये हाथसों बाँये पाँयके अँगूठाको गाढौ पकरे या भाँति डाढी (गुल्फ) छातीपर धरकर नाकके अग्र (आगे) के भागकों देखे । याको नाम पद्मासन है । यह आसन सबरी व्याधि (रोग) निकों नाश करै है ॥ ८ ॥

अथ भद्रासनविधिः ।

गुल्फौ च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेण समाहितः ॥

पदांगुष्ठे कराभ्यां च धृत्वा च पृष्ठदेशतः ॥ ९ ॥

जालंधरं समासाद्य नासाग्रमवलोकयेत् ॥

भद्रासनं भवेदेतत् सर्वव्याधिविनाशकम् ॥ १० ॥

अर्थ—दोनों एडी अंडकोशको नीचे उलटके धरे फिर पीठकी ओरसे दोनों हाथोंसे दोनों पाँयनिके अँगूठानको पकरै और जालंधरबंध (आगे कहेंगे) करके नाकके आगेके भागको ध्यान कर देखे इसका नाम (भद्रासन) है और यह आसन सबरे रोगनिकौ नाश करै ॥ ९ ॥ १० ॥

अथ मुक्तासनविधिः ।

पायुमूले वामगुल्फं दक्षगुल्फं तथोपरि ॥

शिरोग्रीवासमं कार्यं मुक्तासनं तु सिद्धिदम् ॥ ११ ॥

अर्थ—बाँई एडी गुदाकी जडमें लगावे बाहीके ऊपर दाँई एडी राखै और शिर कंठ समानभाव राखै बिलकुल हलवे न पावै और सीधौ होकर बैठे इसको मुक्तासन कहते हैं । यह

आसन (साधकको) सिद्धि (सब भौति) की देवेवारौ है ११ ॥

अथ वज्रासनविधिः ।

जंघाभ्यां वज्रवत्कृत्वा गुदपार्श्वे पदाबुभौ ॥

वज्रासनं भवेदेतत् योगिनां सिद्धिदायकम् ॥ १२ ॥

अर्थ--दोनों जाँघोंको वज्रके आकार (समान) करके पीछे गुदाके दोनों तरफ दोऊ पाँय भिडावै । इसको वज्रासन कहते हैं । यह आसन योगियोंको सिद्धिका देवेवारौ है ॥ १२ ॥

अथ स्वस्तिकासनविधिः ।

जानूर्वोरन्तरे कृत्वा योगी पादतले उभे ॥

ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥ १३ ॥

अर्थ--दोनों पिंडुरी दोनों जाँघोंके बीच करके दोनों पाँयनिको तलभी उसीके मध्यमें धरे और एठ छोडके सरलभाव शरीर करके बैठे । यह स्वस्तिकासन है ॥ १३ ॥

अथ सिंहासनविधिः ।

गुल्फौ च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेणोर्ध्वतां गतः ॥

चितिमूलो भूमिसंस्थः कृत्वा च जानुनोपरि ॥ १४ ॥

व्यक्ताव्यक्तौ जलंध्रं च नासाग्रमवलोकयेत् ॥

सिंहासनं भवेदेतत् सर्वव्याधिविनाशकम् ॥ १५ ॥

अर्थ--दोनों एडी (गुल्फ) अंडकोश (पेलडे) के नीचे उलटकर आपुसमें भिडायके धरे और ऊपरकी ओर बाहर करले और दोनों पिंडुरी भूमि (धरती) में लगाय दे और पिंडुरीनिके ऊपर मुखको खालिकर ऊँची करके जालंधरबंध (आगे

कहेंगे) के आश्रयसों नासिका (नाक) के अग्रभागकों देखते रहै इसकों (सिंहासन) कहते हैं और याके साधनसों सर्व रोग नाशकों प्राप्त होय हैं । इति ॥ १४ ॥ १५ ॥

अथ गोमुखासनविधि ।

पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठपार्श्वे निवेशयेत् ॥

स्थिरकायं समासाद्य गोमुखं गोमुखाकृतिः ॥ १६ ॥

अर्थ—दोनों पाँयनिकों भूमिमें जमायके पीठकी बगलोंमें लगावै और शरीरकों ठहरायके बैठे तौ यह गोमुखके आकार देख पडेगो इसको नाम गोमुखासन है ॥ १६ ॥

अथ वीरासनविधिः ।

एकपादमथैकस्मिन् विन्यस्येदुरुसंस्थितम् ॥

इतरस्मिस्तथा पश्चाद्वीरासनमितीरितम् ॥ १७ ॥

अर्थ—एक जंघाके ऊपर एक पाँय धरके दूसरौ पाँय पीछेकी ओर धरै इसको वीरासन कहते हैं । इति ॥ १७ ॥

अथ धनुरासनविधिः ।

प्रसार्य पादौ भुवि दंडरूपौ करौ च पृष्ठ धृत-

पादयुग्मम् ॥ कृत्वा धनुस्तुल्यपरिवर्तितांगं नि-

धाय योगी धनुरासनं तत् ॥ १८ ॥

अर्थ—दोनों पाँय धरतीमें समान भावसे लकडियाकी भाँति फैलाय दै और दोनों हाथ पीठकी ओरसे लाकर दोनों पाँयनिको पकडे और देहकों धनुषके आकार करके और उलटेपुलटे इसको योगीलोग धनुरासन कहते हैं । इति ॥ १८ ॥

अथ मृतासनविधिः ।

उत्तानशववद्धूमौ शयानं तु श्वासनम् ॥

श्वासनं श्रमहरं चित्तविश्रान्तिकारणम् ॥ १९ ॥

अर्थ—मरे भये मनुष्यकी तरह धरानलमें शयन करनेहीसे मृतासन होता है इसको श्वासनभी कहते हैं यह आसन श्रम (परिश्रम मेहनत) को दूर करै है और चित्तको विश्राम करवेवारौ है । इति ॥ १९ ॥

अथ गुप्तासनविधिः

जानुनोरंतरे पादौ कृत्वा पादौ च गोपयेत् ॥

पादोपरि च संस्थाप्य गुदं गुप्तासनं विदुः ॥ २० ॥

अर्थ—दोनों घोटुओंके बीचमें दोनों पावोंको गुप्तावसों राखै और दोनों पादोंपै गुदाको धरै इसको गुप्तासन कहते हैं ॥ २० ॥

अथ मत्स्यासनविधिः ।

मुक्तपद्मासनं कृत्वा उत्तानशयनं चरेत् ॥

कूर्पराभ्यां शिरो वेष्ट्य मत्स्यासनं तु रोगहा ॥ २१ ॥

अर्थ—मुक्तपद्मासन लगायके हाथसें दोनों घोटुओंके शिरको लपेटे और चित्त होके सोय जावै इसको मत्स्यासन कहें हैं और यह सबरे रोगनिकों दूर करै है ॥ २१ ॥

अथ पश्चिमोत्तानासनविधिः ।

प्रसार्य पादौ भुवि दंडरूपौ संन्यस्त भालश्चित्ति-

युग्ममध्ये ॥ यत्नेन पादौ च धृतौ कराभ्यां योगी-

द्रपीठं पश्चिमोत्तानमाहुः ॥ २२ ॥

अर्थ—दोनों पाँय धरतीमें लकडियाकी तरह फैलायके यत्नके सहित दोनों पाँय हाथनिसों पकरै और दोनों जाँघोंके बीच अपने शिरको धरै इसको योगीन्द्र (योगीनके इंद्र) याकों पश्चिमोत्तान आसन कहें हैं । इति ॥ २२ ॥

अथ मत्स्येन्द्रासनविधिः ।

उदरं पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठति यत्नतः ॥

नम्रांगवामपादं हि दक्षजानूपरि न्यसेत् ॥ २३ ॥

तत्र याम्यं कूर्परं च याम्यं करे वक्त्रकम् ॥

भ्रुवोर्मध्ये गतां दृष्टिं पीठं मात्स्येन्द्रमुच्यते ॥ २४ ॥

अर्थ—पेटको पीठकी तरह करै अर्थात् पेटको और वार्ये पाँयको नवायके दाहने पाँयकी जाँघपर धरै याही भाँति वार्ये पाँयपै दाहने पाँयकी एडी धरै । इतकों दाहने हाथपै सुखकों धरै और भौहनिको मध्यमें (दृष्टि राखे) अर्थात् देखे याकों मात्स्येन्द्रासन कहें हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥

अथ गोरक्षासनविधिः ।

जानूवोरंतरे पादौ उत्तानाव्यक्तसंस्थितौ ॥

गुल्फौ चाच्छाद्य हस्ताभ्यामुत्तानाभ्यां प्रयत्नतः २५

कंठसंकोचनं कृत्वा नासाग्रमवलोकयेत् ॥

गोरक्षासनमित्याह योगिनां सिद्धिकारणम् ॥ २६ ॥

अर्थ—दोनों जाँघ और पींडुरीनके बीचमें दोनों पाँय उत्तान करके गुप्त भावसों राखे फिर दोनों हाथनसों दोनों एडी पकड लेय ता पीछे कंठकों संकुचित (सुकोडकें) नाकके आगेके

भागकों देखै याकौ गोरक्षासन कहैं हैं यह योगियोंकों सिद्धिकौ देवारौ है ॥ २५ ॥ २६ ॥

अथ उत्कटासनविधिः ।

अंगुष्ठाभ्यामवष्टभ्य धरां गुल्फे च खे गतौ ॥

तत्रोपरि गुदं न्यस्य विज्ञेयमुत्कटासनम् ॥ २७ ॥

अर्थ—पाँयकों दोनों अंगुठेके बलसों भूमि (धरती) में धरकें दोनों एडीनको निरालम्ब होके उठायदे और उन्हीं एडी-नपै गुदाको धरे याकों उत्कटासन कहैं हैं ॥ २७ ॥

अथ संकटासनविधिः ।

वामपादं चितेर्मूलं संन्यस्य धरणीतले ॥

पाददंडेन याम्येन वेष्टयेद्द्वामपादकम् ॥

जानुयुग्मे करौ युग्ममेतत्तु संकटासनम् ॥ २८ ॥

अर्थ—बाँये पाँय और अंगूठकौ भूमिमें लगाय दे और दाँये पाँयसों बाँयों पाँय लपेटले और फिर दोनों जाँघोंपर दोनों हाथ धरे इसकौ संकटासन कहते हैं । इति ॥ २८ ॥

अथ मयूरासनविधिः ।

धरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्यां तत्कूर्परे स्थापित-
नाभिपार्श्वम् ॥ उच्चासनो दंडवदुत्थितः खे मयूरमे-
तत्प्रवदन्ति पीठम् ॥ २९ ॥

अर्थ—हाथके दोनों तलोंसे भूमिकौ धारण करै पीछे हाथ-की दोनों गाँठनकों नाभिके दोनों बगलोंमें धारण करना और दोनों पाँयनिको फैलायके ऊंचे आसनसे लकडियाकी तरह आकाशमें देहको उठावै यह मयूरासन है । इति ॥ २९ ॥

अथ कुक्कुटासनविधिः ।

पद्मासनं समासाद्य जानूर्वोरंतरे करौ ॥

कूर्पराभ्यां समासीनो मंचस्थः कुक्कुटासनम् ॥ ३० ॥

अर्थ--पद्मासन बैठकर दोनों जाँघ और पींडुरीनके बीचमें हाथको धसेरके दोनों हाथोंकी कोन्हीनपें मंच (पलका) की तरह उठके बैठे इसको कुक्कुटासन कहें हैं ॥ ३० ॥

अथ कूर्मासनविधिः ।

गुल्फौ च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेण समाहितौ ॥

ऋजुकायशिरोग्रीवं कूर्मासनमितीरितम् ॥ ३१ ॥

अर्थ--दोनों एडिनकों अंडकोश (पेलडे) के नीचे उलटके धरे और शिर (माथौ) और ग्रीवा तथा शरीरको सीधे धरकर रखे इसको कूर्मासन कहें हैं । इति ॥ ३१ ॥

अथोत्तानकूर्मासनविधिः ।

कुक्कुटासनबंधस्थं कराभ्यां धृतकंधरम् ॥

पीठं कूर्मवदुत्तानमेतदुत्तानकूर्मकम् ॥ ३२ ॥

अर्थ--पहिले कुक्कुटासन (पूर्व कह चुके हैं) बाँध लेय फिर दोनों हाथोंसे कंधा पकडके कछुआकी तरह उत्तान हो जाय इसको उत्तानकूर्मासन कहें हैं । इति ॥ ३२ ॥

अथोत्तानमंडूकासनविधिः ।

मंडूकासनमध्यस्थं कूर्पराभ्यां धृतं शिरः ॥

एतद्भेकवदुत्तानमेतदुत्तानमंडुकम् ॥ ३३ ॥

अर्थ--मंडूकासनमें बैठकर हाथनके टकुनानिसों माथे

धारण करके उत्तान हो जावे इसहीको (घेरण्डऋषिने)
उत्तानमंडूकासन कह्यौ है । इति ॥ ३३ ॥

अथ वृक्षासनविधिः ।

वामोरुमूलदेशे च याम्ये पादौ निधाय तु ॥

तिष्ठेत्तु वृक्षवद्भूमौ वृक्षासनमिदं विदुः ॥ ३४ ॥

अर्थ--दायें पाँय वाई जाँघकी जड (मूल) में धरें और
समानभावसे वृक्षकी भाँति (तरह) ठाडौ रहे याकौ वृक्षासन
कहैं हैं । इति ॥ ३४ ॥

अथ मंडूकासनविधिः ।

पादतलौ पृष्ठदेशे अंगुष्ठे द्वे च संस्पृशेत् ॥

जानुयुग्मं पुरस्कृत्य साधयेन्मंडूकासनम् ॥ ३५ ॥

अर्थ--दोनों पाँय पीठकी तरफ करके उनके दोनों अँगूठे
परस्पर एककौ एकसौ मिलायके तथा दोनों जाँघ सामनेकी
ओर धरे इस आसनको मंडूकासन कहैं हैं ॥ ३५ ॥

अथ गरुडासनविधिः ।

जंघोरुभ्यां धरां पीडय स्थिरकायो द्विजानुनी ॥

जानूपरि करं युग्मं गरुडासनमुच्यते ॥ ३६ ॥

अर्थ--दोनों जाँघोंसे तथा दोनों पींडुरीनसौ धरतीकों
दबावे और दोनों पींडुरीनपै दोनों हाथ धरे इसकौ गरुडासन
कहैं हैं । इति ॥ ३६ ॥

अथ वृषासनविधिः ।

याम्यगुल्फे पायुमूलं वामभागे पदेतरम् ॥

विपरितं स्पृशेद्भूमिं वृषासनमिदं भवेत् ॥ ३७ ॥

अर्थ—गुदाके द्वारको दक्षिण एडीके ऊपर धरके उसीके बाँये भागमें बाँये पाँयको उलट करके धरे और धरतीको छीमें इसको वृषासन कहते हैं ॥ ३७ ॥

अथ शलभासनविधिः ।

अधास्य शेते करयुग्मवक्षे भूमिमवष्टभ्य करयो-
स्तलाभ्याम् ॥ पादौ च शून्ये च पितस्ति चोर्ध्वं
वदन्ति पीठं शलभं मुनीन्द्राः ॥ ३८ ॥

अर्थ—नीचे मुख करके सोय जाय और वक्षस्थलमें दोनों हाथ धरके दोनों करतलोंसे माटी पकडकर दोनों पाँय शून्य भागमें विलाँदभर ऊँचे राखे याको नाम शलभासन मुनिजन कहै हैं । इति ॥ ३८ ॥

अथ मकरासनविधिः ।

अधास्य शेते हृदयं निधाय भूमौ च पादौ प्रसार्यमाणौ ॥
शिरे च धृत्वा करदंडयुग्मे देहाग्निकारं मकरासनं तत् ३९ ॥

अर्थ—धरतीमें पेट धर सोय जाय और नीचे मुख करके छातीको धरतीमें लगायके और दोनों पाँय फैलाय दे फिर दोनों हाथनिसों माथो धारण करै याको मकरासन कहै हैं ॥ ३९ ॥

अथ उष्ट्रासनविधिः ।

अधास्य शेते पदयुग्मव्यस्तं पृष्ठे निधायापि धृतं
कराभ्याम् ॥ आकुंचयेत्सम्यगुदरास्यगाढं उष्ट्रं
च पीठं योगिनो वदन्ति ॥ ४० ॥

अर्थ—अधोवदन शयन करके दोनों पाँय उलटके पीठकी

और लावे पीछे दोनों हाथोंसे इन्ही पैरोंको धरके सुख और
पेट दृढभावसों सकोड लेवे इसको उष्ट्रासन कहे हैं ॥ ४० ॥

अथ भुजंगासनविधिः ।

अंगुष्ठनाभिपर्यन्तमधोभूमौ विन्यसेत् ॥ करत-
लाभ्यां धरां धृत्वा ऊर्ध्वं शीर्षं फणीव हि ॥ ४१ ॥
देहाग्निर्वर्द्धते नित्यं सर्वरोगविनाशनम् ॥ जागर्ति
भुजगीदेवी साधनाद् भुजंगासनम् ॥ ४२ ॥

अर्थ—पाँयके अँगूठासे लेकर नाभिपर्यन्त देहकी नीची
और बाएँ भाग धरातलमें अच्छी तरह स्थापन करके हाथसों
दोनों पंजानको धरतीमें अवलंबन करै और सर्पके फनकी तरह
शिरके भागको उठावे याको भुजंगासन कहे हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

अथ योगासनाविधिः ।

उत्तानौ चरणौ कृत्वा संस्थाप्य जानुनोपरि ॥
आसनोपरि संस्थाप्य उत्तानं करयुग्मकम् ॥ ४३ ॥
पूरकैर्वायुमाकृष्य नासाग्रमवलोकयेत् ॥
योगासनं भवेदेतद् योगिनां योगसाधने ॥ ४४ ॥
इति श्रीघेरण्डसंहितायां ऋषिघेरण्डनृपचंडकापालिसंवादे
द्वात्रिंशासनवर्णनं नाम द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥

अर्थ—दोनों पाँयनिको चित्त कर दोनों जाँघोंके ऊपर सं-
स्थापित करके दोनों हाथ उत्त नभावसे आसनके ऊपर रखै पीछे
पूरक (प्राणायाम) के सार द्वारा पवन खंचके कुंभक (डाँटे)

और उस समय नाकको आगेको भाग ताको देखे इसको योगसन कहते हैं । इति ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

इति श्रीघेरंडसंहिताश्रीमथुरास्थदक्षगोत्रोद्भवचातुर्वेदिशर्मश्री

५ कल्याणचंदात्मजराधाचंदविरचितव्रजभाषाटीकायां
आसनवर्णनो नाम द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥

तृतीयोपदेशः ३ ।

अथ मुद्राकथनप्रकरणम् ।

महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानं जलंधरम् ॥

मूलबंधो महाबंधो महावेधश्च खेचरी ॥ १ ॥

विपरीतकरी योनिर्वज्राणी शक्तिधारिणी ॥

ताडागी मांडवी मुद्रा शांभवी पंचधारिणी ॥ २ ॥

अश्विनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी ॥

पंचविंशतिमुद्राणि सिद्धिदानीह योगिनाम् ॥ ३ ॥

अर्थ--महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयान, जलंधर, मूलबंध, महाबंध, महावेध, खेचरी, विपरीतकरी, योनि, वज्राणी, शक्ति-धारिणी, ताडागी, मांडवी, शांभवी, धारणामुद्रा, पांच तरहकी है । जैसे--पार्थिवीधारणा आम्भसीधारणा वैश्वानरीधारणा वायवीधारणा, नभोधारणा और तापीछें अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी, भुजंगिनी ॥ इति ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

मुद्राणां पटलं देवि कथितं तव संनिधौ ॥

येन विज्ञातमात्रेण सर्वसिद्धिः प्रजायते ॥ ४ ॥

गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित् ॥

प्रीतिदं योगिनां चैव दुर्लभं मरुतामपि ॥ ५ ॥

अर्थ—श्रीमहादेव गौरीसे बोले कि हे देवि ! मैंने तेरे आगे मुद्रानिके नाम कहे हैं । इनके जानवेसोंही सब भौतिकी सिद्धिका लाभ होइ है । यह सब विषय परम गोपनीय है जिस किसीको कभी नहीं देना । क्योंकि विना प्रतिज्ञाके साधि हो नहीं सक्ते और कदापि बतायभी दो तौ चंचल लोग दोषित करेंगे और न बन सकेंगे तौ इस विद्याको झूठी कहकर दृढ प्रतिज्ञाकोभी नहीं देना, ये सब मुद्रा योगियोंकोभी परम प्रीति देनेवारी है । यह मुद्रा देवताओंकोभी दुर्लभ हैं । इति ॥ ४ ॥ ५ ॥

अथ महासुद्राविधिः ।

पायुमूलं वामगुल्फे संपीडय दृढयत्नतः ॥

याम्यपादं प्रसार्याथ करे धृतपदांगुलः ॥ ६ ॥

कण्ठसंकोचनं कृत्वा भ्रुवोर्मध्यं निरीक्षयेत् ॥

महासुद्राभिधा मुद्रा कथ्यते चैव सूरिभिः ॥ ७ ॥

अर्थ—गुदामूलको बाँई एडीसों बहुत ताकतसों दबावे और दाये हाथको फैलायके हाथसों पाँयकी अंगुली धरे फिर कंठको सकोडकेँ भौहके मध्यमें ध्यान लगा देवे इसको पंडितगण महासुद्रा कहें हैं । इति ॥ ६ ॥ ७ ॥

अथ सुद्राफलम् ।

क्षयकासं गुदावर्तं प्लीहां जीर्णज्वरं तथा ॥

नाशयेत् सर्वरोगांश्च महासुद्रातिसेवनात् ॥ ८ ॥

अर्थ—उपरोक्त (महासुद्रा) को अधिक सेवन करवेंसों नयसों भई खांसी, गुदावर्त (गुदाके चारों तर्फ वारे फोडा)

तापतिष्ठी और जीर्ण ज्वर (पुरानो ज्वर), तथा और सब तरहके रोग या महामुद्राके सेवनसों नाश होई है । इति ॥ ८ ॥

अथ नभोमुद्राविधिः ।

यत्र यत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत्पवनं सदा ॥

नभोमुद्रा भवेदेषा योगिनां रोगनाशिनी ॥ ९ ॥

अर्थ—जब जब योगी काहू काममें लगे तब तब सर्वदाही ऊपरकी ओर जीभ करके कुंभकके द्वारा स्थिर होकर पवनको धारण किया करे यह अभ्यास सदा रखनेसे योगी समस्त रोगनिते निवृत्त होई हैं इसको नभोमुद्रा कहते हैं । इति ॥ ९ ॥

अथ उड्डीयानबंधविधिः ।

उदरे पश्चिमं तानं नाभिरूर्ध्वं तु कारयेत् ॥

उड्डीयानं कुरुते यत् तद्रविश्रान्तं महाखगः ॥

उड्डीयानं त्वसौ बंधो मृत्युमातंगकेसरी ॥ १० ॥

अर्थ—नाडीके ऊपरका भाग पश्चिमद्वारको उदरके समभावमें सिकोडनों चाहिये अर्थात् उदरके मध्यम भागस्थ गुह्यादि चक्रस्थित नाडीसमूहको नाभीके ऊपर सिकोडके उठानों चाहिये इसको उड्डीयान बंध कहते हैं यह उड्डीयान बंध मौतके लिये अर्थात् गजरूप मृत्युको सिंहके समान है । इति १०

अथ उड्डीयानबंधफलम् ।

समग्राद्धनादेतत् उड्डीयानं विशिष्यते ॥

उड्डीयानसमभ्यस्तेमुक्तिः स्वाभाविकी भवेत् ॥ ११ ॥

अर्थ—जितने मुद्राबंध कहे गये हैं उन सबमें यह उड्डीयान बंध बहुत उत्तम है इस उड्डीयान बंधके साधनसे आपही आप मुक्ति होई है । इति ॥ ११ ॥

अथ जालंधरबंधविधिः ।

कंठसंकोचनं कृत्वा चिबुकं हृदये न्यसेत् ॥

जालंधरकृते बंधे षोडशाधारबंधनम् ॥

जालंधरं महामुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी ॥ १२ ॥

अर्थ—कंठको सकोड करके छातीपर डाढी धरवेहीसों जालंधरबंध कह्यौ जाय है याके साधन करवेसों सोलह भाँतिके आधार बंध हुआ करते हैं यह मौतकाभी नाशक है ॥ १२ ॥

अथ जालंधरबंधफलम् ।

सिद्धं जालंधरं बंधं योगिनां सिद्धिदायकम् ॥

षण्मासमभ्यस्येत् यो हि स सिद्धोनात्रसंशयः ॥ १३ ॥

अर्थ—यह जालंधर बंध स्वयं सिद्ध है यह योगियोंको सिद्धि देवेवारौ है जो बुद्धिवान् छः महीना इसका साधन करता है वह अवश्य सिद्ध हो जाता है इसमें संशय नहीं है ॥ १३ ॥

अथ मूलबंधविधिः ।

पार्ष्णिना वामपादस्य योनिमाकुंचयेत्ततः ॥

नाभियंथिं मेरुदंडं संपीड्य यत्नतः सुधीः ॥ १४ ॥

मेढ्रं दक्षिणगुल्फे तु दृढबंधं समाचरेत् ॥

जराविनाशिनी मुद्रा मूलबंधो निगद्यते ॥ १५ ॥

अर्थ—बाँये पाँयकी एडीसों गुदा प्रदेशको सिकोडे वा पीछे

टूंडीकी गॉठको पीठकी हड्डीसे दबावै और उपस्थकों दाँये एडीसों मजबूत दबाके राखै इसको मूलबंध कहते हैं यह मुद्रा बुढापेको दूर करै है । इति ॥ १४ ॥ १५ ॥

अथ मूलबंधफलम् ।

संसारसागरं तर्तुमभिलषति यः पुमान् ॥

विरलेषु गुप्तो भूत्वा मुद्रामेनां समभ्यसेत् ॥ १६ ॥

अभ्यासाद्बंधनस्यास्य मरुत्सिद्धिर्भवेद्द्रुवम् ॥

साधयेद्यत्नतस्तर्हि मौनी तु विजितालसः ॥ १७ ॥

अर्थ—जो मनुष्य संसारसागरसे पार होनेकी इच्छा करै वे एकान्तस्थानमें गुप्तभावसे इस मुद्राका अभ्यास करै इस मूलबंधके अभ्याससे जरूर पवन (वायु) सिद्धि होई है इसके साधक आलसकों छोडके मौनी हो यत्नपूर्वक इसको साधन करै ॥ १६ ॥ १७ ॥

अथ महाबंधफलम् ।

महाबंधः परो बंधो जरामरणनाशनः ॥

प्रसादादस्य बंधस्य साधयेत्सर्ववांछितम् ॥ १८ ॥

अर्थ—यह महाबंध (नामकी मुद्रा) सब मुद्राओंमें श्रेष्ठ है और बुढापे तथा मौतको नाश करै है इस महाबंधके प्रसादसों सब मनमाने मनोरथ पूर्ण होई है ॥ १८ ॥

अथ महावेधविधिः ।

रूपयौवनलावण्यं नारीणां पुरुषं विना ॥

मूलबंधमहाबंधौ महावेधं विना तथा ॥ १९ ॥

महाबंधसमासस्य उड्डानकुंभकं चरेत् ॥

महावेधः समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायकः ॥ २० ॥

अर्थ—जैसे पुरुषके विना नारीको सुंदररूप यौवन (जवानी) तथा लावण्यता निष्फल रहती है। वैसेही महावेधमुद्राके विना मूलबंध तथा महाबंधभी काऊ कामके नहीं रहते। पहले महाबंध मुद्रा करै फिर उड्डायानबंध मुद्रा करके कुंभक प्राणायामसे वायुको निरोध करवेहीसे महावेध मुद्रा कही जाती है यह मुद्रा महावेधके द्वारा योगिजन सर्वसिद्धिकों पावे हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

अथ महावेधफलम् ।

महाबंधमूलबंधौ महावेधसमन्वितौ ॥

प्रत्यहं कुरुते यस्तु स योगी योगवित्तमः ॥ २१ ॥

न मृत्युतो भयं तस्य न जरा तस्य विद्यते ॥

गोपनीयः प्रयत्नेन वेधोऽयं योगिपुंगवैः ॥ २२ ॥

अर्थ—जो साधक प्रतिदिन इस महावेधके सहित महाबंध और मूलबंधका साधन कियो करे हैं वेही योगियोंमें उत्तम योग विद्याके जानवेवारे कहे जाते हैं। मौत और बुढापा उनके पास कभी नहीं आय सकी। यह मुद्रा परम गुप्त रखवेके योग्य है योगीनमें श्रेष्ठ योगी इसको किसीसे नहीं कहते हैं ॥ २१ ॥ २२ ॥

अथ खेचरीमुद्राविधिः ।

जिह्वाधो नाडीं संछिन्नां रसनां चालयेत्सदा ॥

दोहहेन्नवनीतेन लोहयंत्रेण कर्षयेत् ॥ २३ ॥

एवं नित्यं समभ्यासाल्लम्बिका दीर्घतां व्रजेत् ॥

यावद्गच्छेद्भ्रुवोर्मध्ये तथा गच्छति खेचरी ॥ २४ ॥

रसना तालुमध्ये तु शनैः शनैः प्रवेशयेत् ॥

कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा ॥

भ्रुवोर्मध्ये गतां दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ २५ ॥

अर्थ-जीभके नीचे जीभकी जड और जीभ इन दोनोंको जो नाडी जोडे रहती है उसको काट देवे और नित्यही जिह्वाके अग्रभाग और जिह्वा (जीभ) के नीचे सदा चलाया करै । और जीभको नवनीत (माखन) से ढुहा करै और लोहेकी (चीमटा) सों खेंच लेय । याही प्रकार रोज करनेसे जीभ लंबी हो जाती है । क्रमसे अभ्यास करते करते जीभको इस प्रकार लंबी कर देय कि जासों दोनों भौंहोंके बीचतक पहुँच जाय । फिर उसी जीभको क्रमसे तालुके बीच ले जाय । तालु देश मध्यस्थ (गड्ढाको) कपालकुहर कहते हैं । जीभको उसी तालुके गड्ढामें ऊपरकी ओर उलटके प्रवेशित करै ता पीछे दोनों भौंहनिके मध्य (बीच) के भागको देखे याको खेचरी मुद्रा कहे हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

अथ खेचरीमुद्राफलम् ।

न च मूर्च्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्यं प्रजायते ॥

न च रोगो जरा मृत्युर्देवदेहः स जायते ॥ २६ ॥

अर्थ-जो मनुष्य या खेचरी मुद्राको साधन करे है उनको मूर्च्छा भूख प्यास और आलस्य नहीं होई है और न रोग

न बुढापौ न मौत पास आवे और देवतानकीसी ताकी देह हो जाय ॥ २६ ॥

नाग्निना दह्यते गात्रं न शोषयति मारुतः ॥

न देहं क्लेदयन्त्यापो दंशयेन्न भुजंगमः ॥ २७ ॥

अर्थ—और उनको आग नहीं जलाय सके पवन सुखाय नहीं सके तथा पानी न गीला कर सके तथा साँप काट नहीं सके है ॥ २७ ॥

अथ विपरीतकरीमुद्राविधिः ।

नाभिमूले वसेत्सूर्यस्तालुमूले च चंद्रमाः ॥

अमृतं ग्रसते सूर्यस्ततो मृत्युवशो नरः ॥ २८ ॥

ऊर्ध्वं च गमयेत्सूर्यं चंद्रं च अध आनयेत् ॥

विपरीतकरी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता ॥ २९ ॥

भूमौ शिरश्च संस्थाप्य करयुग्मे समाहितः ॥

ऊर्ध्वपादः शिरो भूत्वा विपरीतकरी मता ॥ ३० ॥

अर्थ—नाभिकी जडमें सूर्य (सूर्यनाडी) वास करै है और मुखके तलुआकी जडमें चंद्रमा (चंद्रनाडी) वास करै है जब नीचेसे सूर्य अपने तेजसों खंचवेसों देहमें रहवेवारौ अमृतको ग्रस कर लेंय है तब मनुष्य मौतके वश होइ है । यालिये ऊपरकी ओरसों सूर्यकों उठानों चाहिये और नीचेकी ओरसों चंद्रमाको ले आनों चाहिये इसका नाम विपरीतकरी मुद्रा है सो सब तंत्रोंसे गुप्त है अर्थात् अंत कहुँ नहीं कही गई । याकी विधि इसी तरह है कि धरतीमें माथेकों धरे और दोनों हाथ-निसों धरतीको पकडकर पाँयनिको ऊपरकी ओर उठायके

सीधा खडा करै और पूरक प्राणायामसे पवन खेचकर कुंभ-
कके द्वारा जहांतक ठहरे तबतक ठहरावे इसको विपरीतकरी
मुद्रा कहते हैं । इति ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥

अथ विपरीतकरीमुद्राफलम् ।

मुद्रेयं साधयेन्नित्यं जरां मृत्युं च नाशयेत् ॥

स सिद्धः सर्वलोकेषु प्रलयेऽपि न सीदति ॥ ३१ ॥

अर्थ—जो मनुष्य इस मुद्राको रोज साधन करता है वह
बुढ़ापा और मृत्युसे बच्यो रहे है । फिर सब लोकनिमें सिद्ध
हो जाता है और प्रलय होनेपरभी अभय रहता है ॥ ३१ ॥

अथ योनिमुद्राविधिः ।

सिद्धासनं समासाद्य कर्णं चक्षुर्नसो मुखम् ॥

अंगुष्ठतर्जनीमध्यानामादिभिश्च साधयेत् ॥ ३२ ॥

काकीभिः प्राणसंकृष्य अपाने योजयेत्ततः ॥

षट्चक्राणि क्रमाद्ध्यात्वा हुं हंसं मनुना सुधीः ॥ ३३ ॥

चैतन्यमानयेद्देवीं निद्रिता या भुजंगिनी ॥

जीवेन सहितां शक्तिं समुत्थाप्य करांबुजे ॥ ३४ ॥

शक्तिमयः स्वयं भूत्वा परं शिवेन संगमम् ॥

नानासुखं विहारं च चिंतयेत्परमं सुखम् ॥ ३५ ॥

शिवशक्तिसमायोगादेकान्तं भुवि भावयेत् ॥

आनंदं च स्वयं भूत्वा अहं ब्रह्मोति संभवेत् ॥ ३६ ॥

योनिमुद्रा परा गोप्या देवानामपि दुर्लभा ॥

सकृत्तु लाभसंसिद्धिः समाधिस्थः स एव हि ॥ ३७ ॥

अर्थ—प्रथम सिद्धासनसों बैठे फिर कान आँख नाक मुख ये चारों द्वारोंको अँगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका इन अँगुरियनसों ढाँक लेय अर्थात् कानके दोनों छेदोंको दोनों अँगुठानसों दोनों आँखनकों दोनों तर्जनीनसों दोनों नाकके छेदोंको दोनों मध्यमानसों, मुखकों दोनों अनामिकानसों दाबै । फिर या मुद्रासों प्राणपवनकों खेंचै और फिर उसे अपानपवन (अधोत्रायु) में मिलाय दे वाके बाद अंगमें छः चक्र है उनका ध्यान करै वाही समयमें (हुँ) और (हंस) इन दो मंत्रोंसे भुजंगिनी रूप कुंडलिनी देवीको जगवै तथा जीवात्मा सहित वा कुंडलिनीको सहस्र कमलमें उठायकें ले जावै और वह साधक या प्रकार चिंता करे मानों में शक्तिमय होकर शिव (आनंद) के संगप्रसंगमें आसक्त होते भये परम आनंद भोग और विहार करता हूँ तथा शिवशक्तिके संयोगसे मैंही आनंदमय (ब्रह्म हूँ) इसको योनिमुद्रा कहते हैं यह मुद्रा परम गोपनीय है यह देवताओंको दुर्लभ है या मुद्राको एकवारभी कोई साधन करै तो साधनेवारो पुरुष सिद्ध हो जाय है इसके द्वारा बहुतही शीघ्र समाधि प्राप्त होवे है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

अथ योनिमुद्राफलम् ।

ब्रह्महा भूणहा चैव सुरापी गुरुतल्पगः ॥

एतैः पापैर्न लिप्यन्ते योनिमुद्रानिबंधनात् ॥ ३८ ॥

यानि पापानि घोराणि उपपापानि यानि च ॥

तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनिमुद्रानिबंधनात् ॥

तस्माद्भ्यासनं कुर्याद्यदि मुक्तिं समिच्छति ॥ ३९ ॥

अर्थ—जो जन योनिमुद्राकौ साधन करें हैं वे यदि ब्रह्म-
घाती (ब्राह्मणकों मारवेवारौ) बालघाती वा गर्भ गिरायवेवारौ
दारु पीवेवारौ गुरुकी नारीसों मैथुन करवेवारौभी होइ तौभी
पापमें नहीं सने है । औरभी जो बडे बडे पाप हैं तथा उप-
पाप हैं तिन सबकों योनिमुद्राकौ बांधवेवारो नष्ट कर देय
है या कारण जो मुक्तिकी इच्छा करे सो याको साधन करै ।
इति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

अथ वज्रोणिमुद्राविधिः ।

धरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्यां ऊर्ध्वे क्षिपेत्पादयुगं
शिरः खे ॥ शक्तिप्रबोधाय चिरजीवनाय वज्रोणि-
मुद्रा मुनयो वदन्ति ॥ ४० ॥

अर्थ—दोनों हाथनिकी हथेरीसों धरतीके तलकों पकडके
दोनों पाँयनिकों ऊपर उठाय दै और माथौभी आकाशकी ओर
उठा देवे केवल हाथके बल खडा रहै इसको मुनि (जन)
वज्रोणि मुद्रा कहें हैं याके अभ्याससों अंगमें शक्ति (ताकत)
आवे और सदा जिया करै अर्थात् अमर हो जावै । इति ४० ॥

अथ वज्रोणिमुद्राफलम् ।

अयं योगे योगश्रेष्ठो योगिनां मुक्तिकारणम् ॥

अयं हितप्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायकः ॥ ४१ ॥

एतद्योगप्रसादेन बिंदुसिद्धिर्भवेद्द्रुवम् ॥

सिद्धे बिंदौ महायत्ने किं न सिध्यति भूतले ॥ ४२ ॥

भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रां समाचरेत् ॥

तथापि सकला सिद्धिर्भवति तस्य निश्चितम् ॥ ४३ ॥

अर्थ—यह मुद्रा साधनरूपी योगमें सब योगोंमें अच्छा (श्रेष्ठ) है और योगियोंकी मुक्ति (मोक्ष) कारण है और यह योग बहुत हितका करनेवारो है तथा योगियोंको सब तरहकी सिद्धिको देवेवारो है । इसी योगके प्रसादसे कामसिद्धि, बिंदु जो (वीर्य) सिद्धि निश्चय होइ है अर्थात् वीर्य रुक गया और जब इस भाँति महायत्नसे वीर्यसिद्धि हो गये पीछे कहे भूत-लमें कौन और सिद्धि न होइगी । और सबेरे बडे बडे भोगोंसे युक्त पुरुषभी यदि इस मुद्राका अभ्यास करै तो सब भाँतिकी सिद्धियाँ जरूर उसको मिलेंगी । इति ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

अथ शक्तिचालनीमुद्राविधिः ।

मूलाधारे आत्मशक्तिः कुंडली परदेवता ॥

शयिता भुजगाकारा सार्द्धत्रिवलयान्विता ॥ ४४ ॥

यावत्सा निद्रिता देहे तावज्जीवं पशुर्यथा ॥

ज्ञानं न जायते तावत् कोटियोगं समभ्यसेत् ॥ ४५ ॥

अर्थ—मूलाधारमें आत्मशक्ति (आत्माकी ताकत) सबसों परे देवता कुंडलिनी सर्पके आकार साढे तीन लपेटाकी गुंडरी (गोला) बांधे सोय रही है । जबतक वह देहमें सोती रहै है तब-तक जीव पशुकी तरह अज्ञान (ज्ञानरहित) बन्धो रहै है सत्य और असत्य कछु नहीं जान पडता तबतक चाहें कोटिप्रकार योगाभ्यास करौ कभी सत्य ज्ञान नहीं होइगौ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

उद्घाटयेत्कपाटं च यथा कुंचिकया हठात् ॥

कुंडलिन्याः प्रबोधेन ब्रह्मद्वारं प्रबोधयेत् ॥ ४६ ॥

अर्थ—इसी निमित्त कहा है कि जैसे तारेसों बंद किवार (कपाट) तारीसे झटपट खोलके भीतर पैठ जाय याही भाँति कुंडलिनीके जानवेपर ब्रह्मद्वार (माथे) को प्रभेद कियो जा सके हैं (चैतन्य कियो जाय है) कि जासों सत्य और असत्यको ज्ञान होइ हैं ॥ ४६ ॥

नाभिं संवेष्ट्य वस्त्रेण न च नग्नो बहिः स्थितः ॥

गोपनीये गृहे स्थित्वा शक्तिचालनमभ्यसेत् ॥ ४७ ॥

अर्थ—एक वस्त्रके द्वारा नाभिदेशकों लपेटके काऊ गुप्त मकानमें बैठकर शक्तिचालनी मुद्राका अभ्यास करै किंतु नंगो हूँके बाहरके भागमें या योगका साधन करनों उचित है नहीं, अर्थात् यह योग नंगो हूँके गुप्तस्थानमें करनों चाहिये ॥ ४७ ॥

वितस्तिप्रामितं दीर्घं विस्तारे चतुरंगुलम् ॥

मृदुलं धवलं सूक्ष्मं वेष्टनाम्बरलक्षणम् ॥

एवमम्बरयुक्तं च कटिसूत्रेण योजयेत् ॥ ४८ ॥

अर्थ—एक बिलाँद लम्बो और चार अंगुल चौडो कोमल (नरम) और महीन सुपेद कपाडासों नाभिकों लपेटके फिर उस वस्त्रको कमरसों बांधै ॥ ४८ ॥

भस्मना गात्रसंलिप्तं सिद्धासनं समाचरेत् ॥

नासाभ्यां प्राणमाकृष्य अपाने योजयेद्बलात् ॥ ४९ ॥

तावदाकुंचयेद्बुद्ध्यां शनैरश्विनिसुद्रया ॥

यावद्गच्छेत्सुषुम्नायां वायुः प्रकाशयेद्धठात् ॥ ५० ॥

अर्थ—राखसों अंगकों लपेट (लेपन) करै और सिद्धासन

बाँधकर बैठे और नाकके दोनों छेदनसों प्राणवायु (हृदयस्थ पवन) को खँचके बलके सहित अपानवायुके संग मिलाय दे जबतक वायु सुषुम्नानाडीके भीतर जायके प्रकाशित न हो तबतक अश्विनीमुद्राके द्वारा धीरे धीरे गुह्यप्रदेश (गुदा) को सकौड़े ॥ ४९ ॥ ५० ॥

तदा वायुप्रबंधेन कुंभिका च भुजंगिनी ॥

बद्धश्वासस्ततो भूत्वा ऊर्ध्वमार्गं प्रपद्यते ॥ ५१ ॥

अर्थ—याही भांति निश्वास रोकके कुंभक प्राणायाम धारण करै तौ भुजंगिनी भुजंगाकार कुंडलिनीशक्ति जागके ऊपरकी ओर उठती है अर्थात् हजार दल कमल परमात्मामें मिल जाती है ॥ ५१ ॥

विना शक्तिं चालनेन योनिमुद्रा न सिद्धयति ॥

आदौ चालनमस्यास्तु योनिमुद्रां समभ्यसेत् ॥ ५२ ॥

अर्थ—विना शक्तिचालनी मुद्राके अभ्यास किये योनिमुद्रा कभी सिद्धि नहीं हो सकै है यासों पहिले या शक्तिचालनी मुद्राकौ अभ्यास कर ले तब योनिमुद्राकौ अभ्यास करै ॥ ५२ ॥

इति ते कथितं चंडकापाले शक्तिचालनम् ॥

गोपनीयं प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत् ॥ ५३ ॥

अर्थ—घेरंड महाराज कहते हैं किहे चंडकापालि ! तुम्हारे आगे यह मैंने मुद्रा कही जाकौ नाम शक्तिचालनी है यह मुद्रा यत्नसों दिन दिन अभ्यास करना चाहिये और वह अभ्यास करनें गुप्त भावसों रहै सहसा प्रसिद्ध जाहिर न होयवे पावै ५३ ॥

अथ शक्तिचालनामुद्राफलम् ।

मुद्रेयं परमा गोप्या जरामरणनाशिनी ॥

तस्माद्भ्यासनं कुर्याद्योगिभिः सिद्धिकांक्षिभिः ५४ ॥

अर्थ—यह मुद्रा परम गुप्त है याके द्वारा बुढापौ और मृत्यु दोनों नष्ट हो जाय हैं याहीसों सिद्धिके चाहवेवारे योगियोंको इसका अभ्यास जरूर करनी चाहिये ॥ ५४ ॥

नित्यं योऽभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता ॥

तस्य विश्वसिद्धिः स्याद्गोपाणां संक्षयो भवेत् ॥ ५५ ॥

अर्थ—जो योगी या मुद्राकौ प्रतिदिन अभ्यास करै है वाके हाथमें सिद्धि आय जाय है और उसको विश्वसिद्धि होय है (विश्वसिद्धि वाकों कहै हैं जामें विशेष ग्रहणकी शक्ति हो जाय है) अर्थात् कोई काम करै झटपट पूरो हो जाय है और वाके रोग दूर हो जाय हैं ॥ ५५ ॥

उदरं पश्चिमोत्तानं कृत्वा च तडागाकृति ॥

ताडागी सा परा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥ ५६ ॥

अर्थ—पश्चिमोत्तान अर्थात् उत्तान होकर पडे और पेटको तडाग (तालाव) की तरह गहरौ करै और कुंभक प्राणायाम करै इसको ताडागी मुद्रा कहै हैं यह मुद्रा एक प्रधान गिनी जाय है याके द्वारा बुढापौ और मौत जीती जाय है । इति ॥ ५६ ॥

अथ मांडूकीमुद्राविधिः ।

मुखं संमुद्रितं कृत्वा जिह्वामूलं प्रचालयेत् ॥

शनैर्यसेदमृतं तां मांडूकीमुद्रिकां विदुः ॥ ५७ ॥

अर्थ—मुखको मूँदकें जीभकी जडकों तालुवेके उपरकी ओर चलावै और धीरे धीरे हजारदल कमल निर्गत अमृत पान करै इसको मांडुकीमुद्रा कहते हैं । इति ॥ ५७ ॥

अथ मांडुकीमुद्राफलम् ।

वलितं पलितं नैव जायते नित्ययौवनम् ॥

न केशे जायते पाको यः कुर्यान्नित्यमांडुकाम् ॥ ५८ ॥

अर्थ—मांडुकी मुद्राका नित्य अभ्यास जो कोई करै उसके अंगमें वलित (खालको सुकड जानों), पलित (वारनको सुपेद हो जानों) तथा मांस गलकर हाड मात्रको रहनों ये नहीं होंय और सदा यौवन (जवानही) बन्यो रहै (अर्थात्) मौत नहीं आवे और बाल पके नहीं (अर्थात् सुपेद नहीं होवे) इति ॥ ५८ ॥

अथ शांभवीमुद्राविधिः ।

नेत्रांजनं समालोक्य आत्मारामं निरीक्षयेत् ॥

सा भवेच्छांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता ॥ ५९ ॥

अर्थ—दोनों भौंहनिके बीचमें वा दोनों भौंहोंकोही स्थिर दृष्टिमें अवलोकन करके और मनको एक रस करके वही आत्माराम (परमात्मा) को देखै (मानों सच्चिदानंद वहीं बैठ्यो है) याहीको शांभवी मुद्रा कहै हैं यह सब तंत्रोंसे गुप्त मानी गई है । इति ॥ ५९ ॥

अथ शांभवीमुद्राफलम् ।

वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥

इयं तु शांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ६० ॥

अर्थ—चारों वेद छहों शास्त्र (न्यायादि यथा धर्मशास्त्र) अठारह पुराण ये सब जैसे गणिका (रंडी) लोगप्रसिद्ध रहती हैं किसीसे गुप्त नहीं रहती तैसेही सामान्य वस्तु है परंतु शांभवी मुद्रा जैसे कुलवधू (अच्छे घरकी स्त्री) बडी यत्नसों रहें और सहसा काउकी आंखनिके आगे नहीं आवे वैसेही यह मुद्रा जाननी ॥ ६० ॥

स एव आदिनाथश्च स च नारायणः स्वयम् ॥

स च ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रां वेत्ति शांभवीम् ॥ ६१ ॥

अर्थ—जो मनुष्य या शांभवी मुद्राको जाने है वह आदिनाथ (सबको प्रथम स्वामी) है वही स्वयं नारायण (जीवसमूहकी जीवनशक्ति तथा रवि) है और वही जगत्को पैदा करवेवारो ब्रह्माभी समझनों ॥ ६१ ॥

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वरः ॥

शांभवीं यो विजानीयात् स च ब्रह्मा न चान्यथा ६२ ॥

अर्थ—जो मनुष्य या शांभवी मुद्राको जानता है वही मूर्तिमान् ब्रह्म है (परमेश्वर) है या बातको महादेवजी तीन वार (त्रिवाचा) करके सत्य कहते हैं यामें झूठ नहीं है ॥ ६२ ॥

अथ पंचधारणमुद्राः ।

कथिता शांभवी मुद्रा शृणुष्व पंचधारणम् ॥

धारणानि समासाद्य किं न सिद्धयति भूतले ॥ ६३ ॥

अर्थ—घेरंड महाराज कहते हैं कि शांभवीमुद्रा तो कह आये अब हे चंडकापाली ! तुम पंचधारण मुद्रा सुनों यह

पंचधारणामुद्राभी पांच प्रकारकी है जिन पाँचोंके प्राप्त होयवे
पै फिर भूतलमें कौन ऐसी बात है जो सिद्ध न हों अर्थात्
सब सिद्ध हो जाय हैं । इति ॥ ६३ ॥

अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनागमम् ॥

मनोगतिर्भवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा ॥ ६४ ॥

अर्थ—ये पाँच प्रकारकी धारणा मुद्रा सिद्ध होनेपर इसी
नरदेहमें (विना मरे) जीतेही स्वर्गलोकमें आनो जानो हो
सकै है और उस साधन करवेवालोंकी मनोगति (चाहे जहाँ
जाय) जाय सकै है तथा खेचरत्व (आकाशमें उडवेकी
शक्ति) प्राप्त हो जाती है पांच प्रकारकी धारणा पहिले कह
आये हैं जैसे पार्थिवी १, आंभसी २, वायवी ३, आग्नेयी ४,
आकाशी ५ । इति ॥ ६४ ॥

अथ पार्थिवीधारणामुद्राविधिः ।

यत्तत्त्वं हरितालदेशरचितं भौमं लकारान्वितम् ॥

वेदास्रंकमलासनेनसहितंकृत्वा हृदिस्थायिनम् ॥ ६५ ॥

प्राणास्तत्र विनीय पंचघटिकां चिंतान्वितां धारये- ॥

देषाशांभकरीभवेत्क्षितिजयं कुर्यादधोधारणा ॥ ६६ ॥

अर्थ—धरतीतत्त्वका वर्ण हरितालके समान पीला है या धर-

तीतलका बीज लकार है इसका आकार चौकोन बराबर है ब्र-
ह्मा याके देवता हैं योगके प्रभावसे उक्त सब बीजनके सहित
हृदयमें ध्यानकर स्थापित करै उस समयमें प्राण वायुकों खेंच-
करके कुंभकके द्वारा पांच घडी (दो घंटा) मन न डिगवे पावे

धारणा किये रहै इसी स्तंभकरी (श्वास ठहरायवेवारी) क्रियाको पार्थिवीधारणा कहते हैं याको दूसरौ नाम (अधोधारणाभी है) याको धारण करवेसों धरती जीती जाय है अथात् धरतीसंबंधी कोईभी बाधा होइ तौ याके धारण करवेसों धारकको कछुभी विघ्न नहीं होता । इति ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

अथ पार्थिवीधारणामुद्राफलम् ।

पार्थिवीधारणामुद्रां यः करोति तु नित्यशः ॥

मृत्युंजयः स्वयं सोऽपि स सिद्धो विचरेद्भुवि ॥६७॥

अर्थ—जो नर रोज या पार्थिवी धारणामुद्राको करता है वही स्वयं मृत्युंजय हो जाता है (अर्थात् कभी नहीं मरता) और वोही सिद्ध होके धरतीमें विचर्यो करै है ॥ ६७ ॥

अथ आंभसीधारणामुद्राविधिः ।

शंखेन्दुप्रतिमं च कुंदधवलं तत्त्वं किलालं शुभम् ॥

तत्पीयूषवकारबीजसहितं युक्तं सदा विष्णुना ॥६८॥

प्राणांस्तत्र विनीय पंचघटिकां चित्तान्वितो धारयेत् ॥

तेषां दुःसहतापपापहरिणीस्यादांभसी धारणा ॥६९॥

अर्थ—जलतत्वका वर्ण शंख तथा चंद्रमाकी तुल्य विमल और कुंदपुष्पकी तरह उज्ज्वल है और शोभन है और याकी अमृत संज्ञा है और वकार याको बीज है और विष्णु याके देवता हैं योगके प्रभावसों हृदयके बीच उक्त जल तत्वके समुदायका ध्यान करै और उसी समय प्राणपवनको खेंचके पांच घडी चित्त स्थिर करके कुंभक प्राणायाममें स्थिर रहै या-

हीकों आंभसीधारणामुद्रा कहते हैं यह मुद्रा बडे २ दुःसह ताप (त्रय) तथा पापनिकों नाश करै है । इति ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

अथांभसीमुद्राफलम् ।

आंभसीं परमां मुद्रां यो जानाति स योगवित् ॥

जले च गंभीरे घोरे मरणं तस्य नो भवेत् ॥ ७० ॥

अर्थ—जो साधक या आंभसीमुद्राको जानता है वही योगवित् (योगकौ साधवेवारौ) है वह यदि महाभयानक और गंभीर (गहरे) जलमेंभी पडकरभी मौतकौ प्राप्त नहीं होइ है अर्थात् श्वाससाधनसों जलमें डूबभी नहीं सकै है ॥ ७० ॥

इयं तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयत्नतः ॥

प्रकाशात्सिद्धिहानिःस्यात्सत्यं वच्मि च तत्त्वतः ७१

अर्थ—यह मुद्रा बडी गुप्त है और यत्नसहित याको जाहिर न करनी याके जाहिर होवेसों सिद्धि (काम) की हानि होइ है यह मैं विचारके सांच कहों हों ॥ ७१ ॥

अथाग्नेयीमुद्राविधिः ।

यन्नाभिस्थितमिंद्रगोपसदृशं बीजं त्रिकोणान्वितम् !

तत्त्व तेजमयं प्रदीप्तमरुणं रुद्रेण यत्सिद्धिदम् ॥

प्राणांस्तत्र विनीय पंचघटिकां चित्तान्वितं धारयेत् ।

एषा कालगभीरभीतिहरिणी वैश्वानरी धारणा ॥ ७२ ॥

अर्थ—अग्नि तत्त्वकौ स्थान नाभिस्थल है याकौ रंग इंद्रगोप (बरिबहुटी) की तरह लाल है रकार याकौ बीज है याकौ आकार त्रिकोण और रुद्र याके देवता हैं यह तत्त्व तेजका

समूह है यह दीप्तमान (प्रकाशमान) और सिद्धिदायक है योगबलसें या अग्नि तत्त्वको उदय करायकें एकाग्रचित्त हो पांच घडीतक कुंभकप्राणायामसे प्राणवायु (हृदयमें रहवे-वारी पवन) को धारण करै इसका नाम आग्नेयी धारणा मुद्रा है याके अभ्याससें संसारका भय (डर) दूर हो जाय है और अग्निके द्वारा साधककी मृत्यु (मौत) कभी नहीं हो सकेगी इति ॥ ७२ ॥

अथाग्नेयीधारणामुद्राफलम् ।

प्रदीप्ते ज्वलिते वह्नौ पतितो यदि साधकः ॥

एतन्मुद्राप्रसादेन स जीवति न मृत्युभाक् ॥ ७३ ॥

अर्थ—यदि साधक बहुत जरती भई धकधकाती आगमें गिर पड़े तौभी या आग्नेयीधारणामुद्राके प्रसादसे जीतो रहेगो कभी मृत्युका भागी नहीं होगा ॥ ७३ ॥

अथ वायवीधारणामुद्राविधिः ।

यद्भिन्नांजनपुंजसन्निभमिदं धूम्रावभासं परम् ।

तत्त्वं सत्त्वमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता ॥

प्राणांस्तत्र विनीय पंचघटिकां चित्तान्वितां धारये- ।

देषा खे गमनं करोति यमिनां स्याद्वायवी धारणा ७४

अर्थ—वायुतत्त्वको रंग धिंस्यो भयो अंजन (सुर्मा) तथा धुएकी तरह है यकार याको बीज है और ईश्वर याको देवता है यह तत्व सत्त्वगुणमय है योगके प्रभावसें या वायु (पवन) तत्त्वको उदित करायकें एकाग्रचित्त हो प्राणवायुको खंच-

कर कुंभकप्राणायामके द्वारा पांच घडीतक धारण करै इसका नाम वायवी मुद्रा है यह मुद्रा साधन करवेवारेको वायुसे कभी मृत्यु नहीं हो सकती और साधककी सामर्थ्य आकाशमें जाने आनेकी हो जाती है ॥ ७४ ॥

अथ वायवीधारणामुद्राफलम् ।

इयं तु परमा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥

वायुना म्रियते नापि खे च गतिप्रदायिनी ॥ ७५ ॥

अर्थ—यह मुद्रा परम श्रेष्ठ है बुढापे और मौत इन दोनोंको नाश करती है और साधक वायुके किसी प्रकारके कोपसों नहीं मर सकता और यह मुद्रा आकाशगमनकी सामर्थ्यको देवेवारी है ॥ ७५ ॥

शठाय भक्तिहीनाय न देया यस्य कस्यचित् ॥

दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात्सत्यं वच्मि च चंड ते ॥ ७६ ॥

अर्थ—घेरंडमहाराज बोले कि हे चंडकापालि ! या मुद्राकी विधि मूर्ख तथा जाके हृदयमें भक्ति न हो ऐसेनको कभी नहीं बतानी चाहिये और हर काऊको नहीं देना और शठादि कनको देनेसो बतायवेवारेको सिद्धि नहीं होइ यह तुमसे मैंने साच कहा है ॥ ७६ ॥

अथ आकाशीधारणामुद्राविधिः ।

यत्सिधौ वरशुद्धवारिसदृशं व्योमं परं भासितम् ।

तत्त्वं देवसदाशिवेन सहितं बीजं हकारान्वितम् ॥

प्राणांस्तत्र विनीय पंचघटिकां चित्तान्वितं धारये- ।
 देषा मोक्षकपाटभेदनकरी कुर्यान्नभोधारणा ॥ ७७ ॥

अर्थ—आकाशतत्त्वका रंग समुद्रके विशुद्ध जलकी तरह प्रकाशित होता है सदाशिव याके देवता है हकार याकौ बीज है इसी आकाशतत्त्वको सदाशिवके सहित योगप्रभावसे उदित एकाग्रमन होकर ध्यान करै और वाही समय प्राणवायुको खेंचकर कुंभकप्राणायामसे पांच घडी धारण किये रहै इसीको आकाशीधारणा कहते हैं यह मुद्रा मोक्ष (मुक्ति) के किवारनको खोल देय है ॥ ७७ ॥

अथाकाशीधारणामुद्राफलम् ।

आकाशीधारणां मुद्रां यो वेत्ति सैव योगवित् ॥

न मृत्युर्जायते तस्य प्रलये नावसीदति ॥ ७८ ॥

अर्थ—जो मनुष्य आकाशीमुद्राको जानता है वही निश्चय योगको जानवेवारौ है उसकी मृत्युभी किसीसे नहीं होती है और प्रलय होनेपरभी ज्योंका त्यों बन्यो रहै है । इति ॥ ७८ ॥ इति पंचधारणामुद्राः समाप्ताः ।

अथ अश्विनीमुद्राविधिः ।

आकुंचयेद्गुदद्वारं प्रकाशयेत्पुनः पुनः ॥

सा भवेदश्विनीमुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी ॥ ७९ ॥

अर्थ—साधक फिर फिर अपने गुदाके मुखको सकोडे और फैलावै याहीको नाम अश्विनीमुद्रा है यह मुद्रा शक्ति (ताकत) को बढायवेवारौ है । इति ॥ ७९ ॥

अथाश्विनीमुद्राफलम् ।

अश्विनी परमा मुद्रा गुह्यरोगविनाशिनी ॥

बलपुष्टिकरी चैव अकालमरणं हरेत् ॥ ८० ॥

अर्थ--यह श्रेष्ठ मुद्रा अश्विनी गुदा (गांड) के सबरे रोगनको नाश करै है और बल और पुष्टिकां बढावे है और अकाल मरण (बेसमय मरवेकों) हर लेती है ॥ ८० ॥

अथ पाशिनीमुद्राविधिः ।

कंठे पृष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवं दृढबंधने ॥

सा एव पाशिनी मुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी ॥ ८१ ॥

अर्थ--दोनों पाँय कंठकी पीठमें डालकर जैसे पाश (रस्सा) से बाँध्यो जाय है वैसेही दृढ (ताकतसे) बाँधै यही पाशिनी मुद्रा कही जाय है यहभी शक्ति (बल) को जगावै है । इति ॥ ८१ ॥

अथ पाशिनीमुद्राफलम् ।

पाशिनी महती मुद्रा बलपुष्टिविधायिनी ॥

साधनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धिकांक्षिभिः ॥ ८२ ॥

अर्थ--यह पाशिनी एक बडी भारी मुद्रा है यह बल और पुष्टि (अंग बढाना) तथा सिद्धि चाहवेवारे साधक लोग इसको जरूर बडे यत्नमें साधन करै ॥ ८२ ॥

अथ कार्कीमुद्राविधिः ।

काकचंचुवदास्येन पिबेद्वायुं शनैः शनैः ॥

कार्कीमुद्रा भवेदेषा सर्वरोगविनाशिनी ॥ ८३ ॥

अर्थ--अपने मुखकों कौआकी चोंचके तरह बनायकें धीरे धीरे वायु पीवे इसका नाम काकीमुद्रा है यह सब तरहके रोगनकों दूर करै है ॥ ८३ ॥

काकीमुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता ॥

अस्याः प्रसादमात्रेण काकवन्निरुजो भवेत् ॥ ८४ ॥

अर्थ--यह काकीमुद्रा बहुत उत्तम है और सब तंत्रनिमें गुप्त है इसके प्रसाद (प्रताप) सों मनुष्य काककी तरह रोगरहित हो जाय है । इति ॥ ८४ ॥

अथ मातंगिनीमुद्राविधिः ।

कंठमग्रे जले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत् ॥

मुखान्निर्गमयेत्पश्चात्पुनर्वक्त्रेण चाहरेत् ॥ ८५ ॥

नासाभ्यां रेचयेत्पश्चात् कुर्यादेवं पुनः पुनः ॥

मातंगिनी परा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥ ८६ ॥

अर्थ--कंठ (गेरे) तक जलमें ठाडौ होकर पहले नाकसों जलको खेंचके मुखसों निकार देवे ता पीछे मुखसों जल खेंचके पीछे नाकसों गेरे देय नाकके दोनों छेदनसों बहाय देइ, या प्रकार वारंवार खेंचै और बेरेवे गेरे याकौ नाम मातंगिनी मुद्रा है यह मुद्रा बुढापे और मौतको नाश करै है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

अथ मातंगिनीमुद्राफलम् ।

विरले निर्जने देशे स्थित्वा चैकाग्रमानसः ॥

कुर्यान्मातंगिनीं मुद्रां मातंग इव जायते ॥ ८७ ॥

अर्थ--साधक कहूं निर्जनवन (जहां कोई मनुष्य न हो)

वहां एकाग्र चित्त कर बैठै या मातंगिनीमुद्राको साथै तौ हाथीकी तरह बलवान् हो जाय है ॥ ८७ ॥

यत्र यत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्नुते ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन साधयेन्मुद्रिकां पराम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—या मुद्राके साधन करवेवारे योगी जहां जहां स्थिर (बैठा) रहेगा वहीं वहीं बहुत सुखका भागी होगा या कारण सब तरहसे जतन करके या श्रेष्ठ मुद्राको साधन करना चाहिये । इति ॥ ८८ ॥

अथ भुजंगिनीमुद्राविधिः ।

वक्रं किञ्चित्सुप्रसार्य चानिलं गलया पिबेत् ॥

सा भवेद्भुजगी मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥ ८९ ॥

अर्थ—सुखको किञ्चित् थोरो फैलायके गरके द्वारा वायु पीया करै गरमें पवनको धक्का जोरसे लगे । इसको भुजंगिनी मुद्रा कहते हैं यह बुढापौतथा मौतको नाश करै है ॥ ८९ ॥

अथ भुजंगिनीमुद्राफलम् ।

यावच्च उदरे रोगमजीर्णादि विशेषतः ॥

तत्सर्वं नाशयेदाशु यत्र मुद्रा भुजंगिनी ॥ ९० ॥

अर्थ—जितने उदर (पेट) में रोग हैं तथा अजीर्ण आदिकोंको विशेष करके यह भुजंगिनी मुद्रा शीघ्र दूर करै ॥ ९० ॥

अथ सर्वमुद्राफलम् ।

इदं तु मुद्रापटलं कथितं चंडकापाले ॥

वल्लभं सर्वसिद्धानां जरामरणनाशनम् ॥ ९१ ॥

अर्थ—घेरंडमुनि बोले कि हे चंडकापालि ! मैंने तेरे आगे यह मुद्रानकौ पटल कह्यौ यह सबरे सिद्ध जनोंको प्रिय (प्यारा) है और बुढापे तथा मौतको नाश करै है । इति ॥ ९१ ॥

शठाय भक्तिहीनाय न देयं यस्य कस्यचित् ॥

गोपनीयं प्रयत्नेन दुर्लभं मरुतामपि ॥ ९२ ॥

अर्थ—जो मूर्ख और भक्तिहीन अर्थात् जो भक्तियान् न हौ उसको ये मुद्रा कभी नहीं देनों चाहिये और जिस तिस-कोभी देनी उचित नहीं है इसको यत्नसों गुप्त राखनी चाहिये ये सब मुद्रा देवतानकोभी दुर्लभ हैं । इति ॥ ९२ ॥

ऋजवे शांतचित्ताय गुरुभक्तिपराय च ॥

कुलीनाय प्रदातव्यं भोगमुक्तिप्रदायकम् ॥ ९३ ॥

अर्थ—ये सब मुद्रा भोग (भोजनादि) मोक्ष दोनोंनको द्वेवारी है यासों याकों विचार कर देनी चाहिये जैसे कि कोमल सुभाव हों शांतचित्त (चंचल मन न हो) गुरुके कह-वेमें विश्वास राखता तौ होइ और अच्छे कुल (वंश) कौ होय ऐसेनको देनी चाहिये ॥ ९३ ॥

मुद्राणां पटलं ह्येतत्सर्वव्याधिविनाशनम् ॥

नित्यमभ्यासशीलस्य जठराग्निविवर्द्धनम् ॥ ९४ ॥

अर्थ—यह मुद्रापटल सबरे रोगनको नाश करै है और जो नित्य अभ्यास करते हैं उसकी जठराग्नि (पेटकी अग्नि) बढ जाय है । इति ॥ ९४ ॥

तस्य नो जायते मृत्युर्नास्य जरादिकं तथा ॥

नाग्निजलभयं तस्य वायोरपि कुतो भयम् ॥ ९५ ॥

अर्थ—जो नर मुद्रासाधन करै हैं उनको न तौ बुढापौ न मौत आदि न आग न पानी न पवन (वायु) कभी भय नहीं पहुँचा सकें हैं । इति ॥ ९५ ॥

कासः श्वासः ष्टीहकुष्ठं श्लेष्मरोगाश्च विंशतिः ॥

मुद्राणां साधनाच्चैव विनश्यन्ति न संशयः ॥ ९६ ॥

अर्थ—मुद्रा साधन करवेसों कास श्वास ष्टीह कोढ वीस तरहके कफरोग नाशको प्राप्त होते हैं (अर्थात् सर्व रोग जाते रहते हैं) इति ॥ ९६ ॥

बहुना किमिहोक्तेन सारं वच्मि च चंड ते ॥

नास्ति मुद्रासमं किञ्चित् सिद्धिदं क्षितिमंडलम् ९७ ॥

इति श्रीघेरण्डसंहितायां घेरण्डचंडकापालिसंवादे

घटस्थयोगप्रकरणे मुद्राप्रयोगो नाम

तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥

अर्थ—घेरंडमहाराज कहते हैं कि हे चंडकापालि ! तोंसों बहुत कहनेसे क्या है किंतु सार बात मैं कहता हूं कि जिस भूमंडल (धरतीके चारों तरफ) मुद्रासे परं कोईभी चीज सिद्धि देवेवारी नहीं है । इति ॥ ९७ ॥

इति श्रीघेरंडसंहितायां श्रीमधुपुरीयास्थदक्षगोत्रोद्भवचातु-

र्वेदीशर्म श्री ५ कल्याणचंद्रात्मजभिषग्नाथाचंद्रविर-

चिते व्रजभाषाभाष्यं नाम टीकायां घटस्थयोगप्रक-

रणे मुद्राकथनो नाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥

चतुर्थोपदेशः ४ ।

अथ प्रत्याहारप्रकरणम् ।

अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकमुत्तमम् ॥

यस्य विज्ञानमात्रेण कामादिरिपुनाशनम् ॥ १ ॥

अर्थ—घेरंड महाराज कहते हैं कि हे चंडकापालि ! मुद्रा कहे पीछे अब हम तोसों प्रत्याहार उत्तम योग कहत हों याके ज्ञानमात्रसेही कामादि (क्रोध मोह मद आदि) वैरी नाशकौ प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

अतस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २ ॥

अर्थ—जिस विषयमें मन चंचल होके भ्रमण करै प्रत्याहारके द्वारा उस उस विषयसों मनको लौटाय दे अपने वश लानों चाहिये । इति ॥ २ ॥

पुरस्कारं तिरस्कारं सुश्राव्यं भावमायकम् ॥

मनस्तस्मान्नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ ३ ॥

अर्थ—चाहें आदर हो चाहें निरादर हो किसीमें मनको कभी नहीं फसानों याही प्रकार कानको अच्छा लगता शब्द हो चाहे बुरो बोले हो किसीमें मन न लगावै अपनेही वश राखै । इति ॥ ३ ॥

सुगंधो वापि दुर्गंधो घ्राणेषु जायते मनः ॥

तस्मात्प्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ ४ ॥

अर्थ—चाहें सुगंध (अच्छी गंध) हो चाहें दुर्गंध (बुरी गंध) हों सूंघवेमें आवै और मन वारंवार चाहें तौ मनको वहांसे लौटायके अपने वशमें कर लेय ॥ ४ ॥

मधुराम्लकतित्तादिरसान्याति यदा मनः ॥

तस्मात् प्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ ५ ॥

इति श्रीघेरण्डसंहितायां घेरण्डचंडकापालिसंवादे

प्रत्याहारप्रयोगो नाम चतुर्थोपदेशः ॥ ४ ॥

अर्थ—मीठौ खट्टौ चरपरौ रस आदि (सब रस) कसैलौ कडुऔ लवण हो यदि मन इन छहों रसोंकी ओर दौड़े तौ उधरसे फेरकरके मनकों आत्मा (अपने) वंशमें लावै इसका अभ्यास करै याकौ नाम प्रत्याहार कहे हैं । इति ॥ ५ ॥

इति श्रीघेरण्डसंहितायां श्रीमधुपुरीयास्थदक्षगोत्रोद्भवविद्व-

द्वरशिरोमणिश्रीगुरु १०५ श्री नारायणचंद्रचरणारविंदा-

नुरागिगधाचंद्रविरचितं ब्रजभाषाभाष्यं नाम टीकायां

प्रत्याहारप्रयोगो नाम चतुर्थोपदेशः ॥ ४ ॥

पञ्चमोपदेशः ५ ।

अथ प्राणायामप्रयोगः ।

अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य यद्विधिम् ॥

यस्य साधनमात्रेण देवतुल्यो भवेन्नरः ॥ १ ॥

अर्थ—घेरण्डमहाराज चंडकापालीसे कहे हैं कि प्राणा-

यामकी विधि कहे हैं जाके साधन करवेसों नर देवतानके समान होइ जाइ है । इति ॥ १ ॥

आदौ स्थानं तथा कालं मितहारं तथा परम् ॥

नाडीशुद्धिं च तत्पश्चात्प्राणायामं च साधयेत् ॥ २ ॥

अर्थ—प्राणायाम साधनके पहले स्थान निदान करना चाहिये तापीछे समय स्थापन करै एक अंदाजसों भोजन कर तापीछे प्राणायामकौ साधे ॥ २ ॥

स्थाननिदानम् ।

दूरदेशे तथारण्ये राजधान्यां जनांतिके ॥

योगारंभं न कुर्वीत कृतो न सिद्धिदो भवेत् ॥ ३ ॥

अर्थ—देश (गाम) नसों दूर तथा वन (शोभायमान) में राजाके राजमें जातके बहुत नरोंके पास इतनी जगह प्राणायामरूप योगकौ साधन करनेसों सिद्धिकौ नहीं देय है ॥ ३ ॥

अविश्वासं दूरदेशे अरण्ये रक्षिवर्जितम् ॥

लोकारण्ये प्रकाशश्च तस्मात् त्रीणि विवर्जयेत् ॥ ४ ॥

अर्थ—दूर देशमें भरोसौ न होयवेसों और वनमें रक्षा नहीं होइ सकै तासो (शहर) नगरमें जाहिर होइ है तासों इन तीननकों नहीं करना अर्थात् इनकी नाई है ॥ ४ ॥

सुदेशे धार्मिके राज्ये सुभक्षे निरुपद्रवे ॥

तत्रैकं कुटीरं कृत्वा प्राचिरैः परिवेष्टितम् ॥ ५ ॥

वापीकूपतडागं च प्राचीशादयवर्ति च ॥

नात्युच्चं नातिनिम्नं च कुटीरं कीटवर्जितम् ॥ ६ ॥

सम्यग्गोमयलिप्तं च कुटीरं तत्र निर्मितम् ॥

एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामं समभ्यसेत् ॥ ७ ॥

अर्थ—अच्छे देशमें धर्मवान् राजाके राज्यमें अच्छी अच्छी तरहके भोजन होते हैं वहां और जहां कछु उपद्रव न हो

तहां एक कुटी (मकान) बनावे वाके चारों ओर भींत आदिसे घेर देवे और वा भींतादिके भातर कुआ बावडी तलाव होना चाहिये वो कुटी न तौ ऊंची होइ न बहुत नीची होय और कोई जानवर वहां न होइ और गोबरसो लिपी रहे ऐसी कुटी निर्माण करे ऐसे जगह काऊकों जाहिर न हों वहां प्राणायाम साधनो चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

अथ कालनिर्णयः ।

हेमन्ते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायां च ऋतौ तथा ॥

योगारंभं न कुर्वीत कृतो योगो हि रोगदः ॥ ८ ॥

अर्थ—हेमन्तऋतु शिशिरऋतु ग्रीष्मऋतु और वर्षाऋतु इनमें जो योगकौ आरंभ कियो जाय तौ रोग पैदा करै ह अर्थात् इन ऋतुनमें योगकौ आरंभ न करना ॥ ८ ॥

वसन्त शरदि प्रोक्तं योगारंभं समाचरेत् ॥

तथा यागी भवेत्सिद्धो रोगान्मुक्तो भवेद्द्रुवम् ॥ ९ ॥

अर्थ—वसन्तऋतु और शरदऋतुमें योगकौ आरंभ कर इनमें जो योगारंभ करै तौ योग सिद्ध होकर सबरे रोगनसे जहर छूटे । इति ॥ ९ ॥

चैत्रादिफाल्गुनान्ते च माघादिफाल्गुनान्तिके ॥

द्वौ द्वौ मासौ ऋतुभोगौ अनुभावश्चतुश्चतुः ॥ १० ॥

अर्थ—चैत्रके महीनेसो लेके फाल्गुनके अंततक छः ऋतु हैं तथा माहके आदिसों फाल्गुनके अंततक दो दो महीना-नमें एक एक ऋतु होइ तथा अनुमानसों दो महीना दस दस दिनकी ऋतु होय हैं ॥ १० ॥

वसंतश्चैत्रवैशाखौ ज्येष्ठाषाढौ च ग्रीष्मकः ॥

वर्षा श्रावणभाद्राभ्यां शरदाश्विनकार्तिकौ ॥ ११ ॥

अर्थ--चैत वैशाख तौ वसंतऋतु है, जेठ आसाढ ग्रीष्म (गरमी) की ऋतुके हैं, सामन भादों वर्षाऋतु है कार्तिक शरदऋतुके हैं, यहां हेमंत शिशिर नहीं कही ॥ ११ ॥

अनुभावं प्रवक्ष्यामि ऋतूनां च यथोदितम् ॥

माघादिमाधवान्तेषु वसंतानुभवश्चतुः ॥ १२ ॥

चैत्रादि चाषाढांतं च निदाघानुभवश्चतुः ॥

आषाढादि चाश्विनांतं प्रावृषानुभवश्चतुः ॥ १३ ॥

भाद्रादिमार्गशीर्षान्तं शरदानुभवश्चतुः ॥

कार्तिकादिमाघमासान्तं हेमंतानुभवश्चतुः ॥

मार्गादिचतुरो मासान् शिशिरानुभवं विदुः ॥ १४ ॥

अर्थ--माहसों वैशाखतक चार महीना वसंतऋतु अनुभव होय है फिर चैतसों आसाढके अंततक ग्रीष्मऋतु अनुभव होइ है और आसाढसों कारके अंततक प्रावृष (वर्षा) अनुभव होती है, भादोंसे अगहनके अंततक शरदऋतु अनुभव होइ है और कार्तिकसों माहके अंततक हेमंतऋतु अनुभव होइ है और अगहनसे चार महीना शिशिरऋतु अनुभव होइ है सोये अनुभव ऋतुनकौ यथायोग कहत भयो इति ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

वसंते वापि शरदि योगारंभं समाचरेत् ॥

तदा योगो भवेत्सिद्धो विनायासेन कथ्यते ॥ १५ ॥

अर्थ—वसंत अथवा शरदमें योग आरंभ करै तो विना परिश्रम योग सिद्ध हो जायगौ ये योगीनने कहा है ॥ १५ ॥

अथ मिताहारः ।

मिताहारं विना यस्तु योगारंभं तुं कारयेत् ॥

नानारोगो भवेत्तस्य किञ्चिद्योगो न सिद्ध्यति ॥ १६ ॥

अर्थ—जो नर अंदाज न बाँधकर भोजन करै है और योगकौ आरंभ करै है वो बहुत रोगनसों व्याप्त होय है और वाको नेकहू योग (विद्या) सिद्ध नहीं होइ है ॥ १६ ॥

शाल्यन्नं यवपिंडं वा गोधूमपिंडकं तथा ॥

मुद्गं माषचणकादि शुभ्रं च तुषवर्जितम् ॥ १७ ॥

अर्थ—जो कोउ योग कियो चाहें तो वो शालि (चावल) जौकी रोटी गेहूँकी रोटी मूँग उर्द वा चनाकी दार जो खूब झक तुष (भूसी) रहित भोजन करै ॥ १७ ॥

पटोलं पनसं मानं कंकोलं च शुकाशकम् ॥

द्राढिकां कर्कटीरंभोदुंबरीकंटकंटकम् ॥ १८ ॥

अर्थ—परवल कटहर कंकोल करेल आढकी (अरुई) काँकडी केला गूलर चौराई आदिको शाक भोजनमें काम लावे ॥ १८ ॥

आमरंभां बालरंभां रंभादुंडं च मूलकम् ॥

वार्ताकीमूलकं ऋद्धिं योगी भक्षणमाचरेत् ॥ १९ ॥

अर्थ—आम गहर तथा कच्ची गहर केलाके गुच्छाकौ दंडा केलाकी जड और बैंगन मुरी ऋद्धि (औषध) इन सबके साग योगीनको खाने चाहिये ॥ १९ ॥

बालशाकं कालशाकं तथा पटोलपत्रकम् ॥

पंचशाकं प्रशंसीयाद्रास्तुकं हिलमोचिकाम् ॥ २० ॥

अर्थ—कोमल (कच्ची) साग अपने काल (समय) भयो साग और परवलके पत्ता ये पाँच साग (योगियोंको) प्रशंसाके योग्य हैं और बथुआ तथा हिलमोचिकादि ॥ २० ॥

शुद्धं सुमधुरं स्निग्धं उदरार्द्धविवर्जितम् ॥

भुज्यते सुरसं प्रीत्या मिताहारमिमं विदुः ॥ २१ ॥

अर्थ—स्वच्छ मीठे चीकने आधे पेट अर्थात् भरपेट नहीं ऐसे भोजनों योगी सुंदररसयुत प्रीतिकर भोजन करै यार्को मित (युक्त) आहार कहें हैं ॥ २१ ॥

अन्नेन पूरयेद्धृदं तोयेन तु तृतीयकम् ॥

उदरस्य तुरीयांशं संरक्षेद्रायुचारणे ॥ २२ ॥

अर्थ—आधे पेट भोजन करे तीसरे (भाग) जल पीये और चौथौ हिस्सा पेटको पवनको फिरवेको बाकी रहनेदेवे २२ कट्वम्ललवणं तिक्तं भृष्टं च दधि तक्रकम् ॥

शाकोत्कटं तथा मद्यं तालं च पनसं तथा ॥ २३ ॥

कुलत्थं मसुरं पांडुं कूष्मांडं शाकदंडकम् ॥

तुम्बीकोलकपित्थं च कंटबिल्वपलाशकम् ॥ २४ ॥

कदंबं जंबिरं बिम्बं लकुनं लशुनं विषम् ॥

कामरंगं प्रियालं च हिंगुशाल्मलिकेमुकम् ॥

योगारंभे वर्जयेत् पथ्यं स्त्रीवह्निसेवनम् ॥ २५ ॥

अर्थ—कडुऔ खट्टौ नोनकौ चरपगै भूजे भये (चनादि)

दही मठा बुरे साग शराब (नसाकी वस्तु) छुहारे कटहर
 और कुलथी मसूरकी दाल पांडु (पीतकाको साग) पेठौ
 मशीके डाठरे घीया वैर कैथ (फल) काँटेवारौ वेल पलाश
 (टाक) कदंबके फूल जंभीरी लकुच लहसन विष कमरख
 प्याज हाँग शेमर केसुक (गोभी) इनकों योगके आरंभमें
 नहीं सेवै अर्थात् वर्जित हैं और रस्तामें चलनों, पराई नारी
 और आगि येभी न सेवै ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

नवनीतं घृतं क्षीरं गुडशक्रादि चैक्षवम् ॥

पंचरंभां नारिकेलं दाडिमं मसिवासरम् ॥

द्राक्षां तु नवनीं धात्रीं रसमम्लं विवर्जितम् ॥ २६ ॥

अर्थ—नवनीत (माखन) घी दूध गुड शकरादि गाँडेकी
 चीप पाँच तरहके केला अनार सोफ और मुनक्का नोनियां
 आवरे और खट्टे रस वर्जित हैं ॥ २६ ॥

एला जातिलवंगं च पौरुषं जम्बु जाम्बुलम् ॥

हरीतकीं च खर्जूरं योगी भक्षणमाचरेत् ॥ २७ ॥

अर्थ—इलाइची चमेल वा (जावित्री) लोंग बल करवे-
 वारी दवा जासुन और कठजासुन हरडे छुहारे ये वस्तु योगीको
 भोजनमें लेनी चाहिये ॥ २७ ॥

लघुपाकप्रियं स्निग्धं यथा धातुप्रपोषणम् ॥

मनोभिलषितं योज्यं योगी भोजनमाचरेत् ॥ २८ ॥

अर्थ—जल्दी पकवेवारी तथा मनको प्रिय चिकनी और

धातुनको पालवेवारी जो मनसे अच्छे लगे उनको योगी भोजनमें लेवे ॥ २८ ॥

काठिन्यं दुरितं पूतिमुष्णं पर्युषितं तथा ॥

अतिशीतं चातिचोग्रं भक्ष्यं योगी विवर्जयेत् ॥२९॥

अर्थ—कठिन चीज बुरी पाप पैदा करवेवारी चीज सड्यो वास्यो तथा बहुत ठंडो बहुत गरम ऐसे भोजन योगीकों नहीं सेवन करवे चाहिये ॥ २९ ॥

प्रातः स्नानोपवासादिकायक्लेशविधिं विना ॥

एकाहारं निराहारं यामान्ते च न कारयेत् ॥ ३० ॥

अर्थ—सबरेकौ नहान्हों उपवास (भूखों रहनों) अंगकौ दुःख देवेवारे काम और विधिरहित और एक समयही खानों तथा नहीं खानो एक प्रहर पीछें भोजन ये न करने ॥ ३० ॥

एवं विधिविधानेन प्राणायामं समाचरेत् ॥

आरंभं प्रथमं कुर्यात् क्षीराज्यं नित्यभोजनम् ॥

मध्याह्ने चैव सायाह्ने भोजनद्वयमाचरेत् ॥ ३१ ॥

अर्थ—वही विधि विधानसें प्राणायाम करना चाहिये पहले प्राणायाम करे तब दूध घी नित्य भोजनमें पीनो चाहिये और दुपहर तथा संध्याके समय इन दोही समयमें योगी भोजन करै ॥ ३१ ॥

अथ नाडीशुद्धिः ।

कुशासने मृगाजिने व्याघ्राजिने च कम्बले ॥

स्थूलासने समासीनः प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः ॥

नाडीशुद्धिं समासाद्य प्राणायामं समभ्यसेत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—प्राणायाम साधनसों पहले नाडी शुद्ध करले फिर प्राणायाम साधै पूर्व कुशासनमें वा मृगछालापें वा वाघम्बरपें वा कंबलपें बैठे छोटी होय चाहे मोटी पूर्वकी ओर मुख कर वा उत्तरकी ओर मुख करके बैठे ॥ ३२ ॥

नाडीशुद्धिं कथं कुर्यान्नाडीशुद्धिस्तु कीदृशी ॥

तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तद्ब्रूस्व दयानिधे ॥ ३३ ॥

अर्थ—हे दयानिधे ! नाडीशुद्धि कौन भाँति करनी चाहिये और नाडीशुद्धिके कहा लक्षण है ता सबके सुनवेकी मेरी इच्छा है सो आप ताकों कहौ ॥ ३३ ॥

मालाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव गच्छति ॥

प्राणायामः कथं सिद्धिस्तत्त्वज्ञानं कथं भवेत् ॥

तस्मादादौ नाडीशुद्धिं प्राणायामं ततोभ्यसेत् ॥ ३४ ॥

अर्थ—मालाकी तरह गुही भई नाडीनके भीतर पवन घुसके गमन नहीं कर सकै है तासों प्राणायाम कैसे सिद्धि होवै और तत्त्वज्ञानहू नहीं होयसकै है तासों पहले नाडीशुद्धि कर फिर प्राणायामको अभ्यास (साधन) करै ॥ ३४ ॥

नाडीशुद्धिर्द्विधा प्रोक्ता समनुनिर्मनुस्तथा ॥

बीजेन समनुं कुर्यान्निर्मनुं धौतिकर्मणा ॥ ३५ ॥

अर्थ—नाडीशुद्धि दो तरहसो होय है एक तौ समनु दूसरै निर्मनु कह्यौ है समनु तौ वह जो बीजमंत्रसों कीयौ जाय और

धौतिकर्म (पहले कह आये) तासों करे सों निर्मनु नाडी शुद्धि कहे हैं ॥ ३५ ॥

धौतिकर्म पुरा प्रोक्तं षट्कर्मसाधने यथा ॥

शृणुष्व समनुं चंड नाडीशुद्धिं यथा भवेत् ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे चंडकापालि ! पहले छः कर्मके साधनमेंही धौतिकर्म कह आये और नाडीशुद्धि जैसे होई सो तू सुन ॥ ३६ ॥

उपविश्यासने योगी पद्मासनं समाचरेत् ॥

गुर्वादिन्यासनं कुर्याद्यथैव गुरुभाषितम् ॥

नाडीशुद्धिं प्रकुर्वीत प्राणायामविशुद्धये ॥ ३७ ॥

अर्थ—योगी पद्मासन लगायकरके बैठे और गुरुआदिक न्यास करे तथा गुरुजीने सिखायो, कस्यो तैसं करे तौ नाडी शुद्धि होई है प्राणायाम शुद्धिके लिये ॥ ३७ ॥

वायुबीजं ततो ध्यात्वा धूम्रवर्णं सतेजसम् ॥

चंद्रेण पूरयेद्रायुं बीजं षोडशकैः सुधीः ॥ ३८ ॥

चतुःषष्ट्या मात्रया च कुंभकेनैव धारयेत् ॥

द्वात्रिंशन्मात्रया वायुं सूर्यनाड्या च रेचयेत् ॥ ३९ ॥

अर्थ—तब ध्यान करे वायुबीज (यं) कौ केसौ है वायु-बीजकौ वर्ण तौ ताको धूम्र (धूआँ) के समान तेजसहित ये जो मंत्र है ताकौ वाँए नाकके छेदसो सोलह वार जपतौ (वायु-कौ खेंचे) और चौसठ वार जपतौ दोनों नाकके छेद बंद कर वायु (पवन) को ठहरावै ऐसैही बत्तीस वार जपतौ नाकके दायें छेदसों वायु (पवन) को निकार दे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

नाभिमूलाद्ब्रह्मिमुत्थाप्य ध्यायेत्तेजोवनीयुतम् ॥

वह्निबीजषोडशेन सूर्यनाड्या च पूरयेत् ॥ ४० ॥

चतुःषष्ट्या च मात्रया कुम्भकेनैव धारयेत् ॥

द्वात्रिंशन्मात्रया वायुं शशिनाड्या च रेचयेत् ॥ ४१ ॥

अर्थ—टूंडीकी जड अग्नितत्वकी जगह है सो वाको ध्यान कर दीप्त करै धरतीतत्वकी वामें मिलावै फिर अग्निबीज जो (रं) ताको सोलै वार जप करतौ भयौ नाकके दाँये छेदसों पवनको खेंचे ऐसेही चौसठ वार (रं) जपतौ भयौ दोनों सुर नाकके छेद मूंद जपतौ भयो डाँटै और वत्तीसवार वायुमंत्रके बीजको जपतौ भयो नाकके वायें छेदसो निकास देय ॥ ४० ॥ ४१ ॥

नासाग्रे शशिधृग्बिंबं ध्यात्वा जोत्स्नासमन्वितम् ॥

ठं बीजं षोडशेनैव इड्या पूरयेन्मरुत् ॥ ४२ ॥

चतुःषष्ट्या मात्रया च वं बीजं नैव धारयेत् ॥

अमृतं प्लावितं ध्यात्वा नाडीधौतिं विभावयेत् ॥

लकारेण द्वात्रिंशेन दृढं भाव्यं विरेचयेत् ॥ ४३ ॥

अर्थ—फिर नाकके आगेके भागमें किरणनिके सहित चंद्रको ध्यान करतौ भयौ (ठं) जो बीज है ताको सोलै वार जप करतौ भयौ नाकके वायें रंध्र (छेद) सों वायु (पवन) को होले होले खेंचे और चौसठ वार (मात्रा) जपै (वं) बीजको जपतौ भयौ (दोनों छेदनिसों रोके) और ध्यान करै कि नाकके आगेके भागमें रहवेवारौ चंद्रबिम्ब तासों मानौ

अमृत गिरे है तासो अंगकी सबरी नाडी धुइ रही हैं ऐसैं ध्यान कर (लं) बीज ताकों बत्तीस वार जपतौ भयो नाकके दाँये सुर (छेद) सो निकार देय ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

एवंविधां नाडीशुद्धिं कृत्वा नाडीं विशोधयेत् ॥

दृढो भूत्वासनं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत् ॥ ४४ ॥

अर्थ--याही नाडीशुद्धिसे नाडीनकों झक करके मजबूतीसों आसन मारके प्रिय प्राणायामकौ अभ्यास करनों ॥ ४४ ॥

सहितः सूर्यभेदश्च उज्जायी शीतली तथा ॥

भस्त्रिका भ्रातरी मूर्च्छा केवली चाष्टकुंभिकाः ॥ ४५ ॥

अर्थ--आठ तरहकौ कुंभक प्राणायाम है सहित, सूर्यभेद, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छा, केवली । इति ४५

सहितो द्विविधिः प्रोक्तः प्राणायामं समाचरेत् ॥

सगर्भो वीर्यमुच्चार्य निगर्भो बीजवर्जितः ॥ ४६ ॥

अर्थ--कुंभकप्राणायाम सहित नामक दो तरहकौ है एक तौ सगर्भ और दूसरौ निगर्भ जा कुंभकमें बीजमंत्र बोल करके साधन क्यौ जाय वो तो सगर्भ कह्यो जाय है और जामें बीज मंत्र न बोल्यो जाय वह निगर्भ कह्यो जाय है । इति ॥ ४६ ॥

प्राणायामं सगर्भं च प्रथमं कथयामि ते ॥

सुखासने चोपविश्य प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः ॥

ध्यायेद्विधिं रजोगुण्यं रक्तवर्णमवर्णकम् ॥ ४७ ॥

अर्थ--सगर्भ जो प्राणायाम है ताकों पहले कहों हों सुखासनेपै पूरवकी ओर सुख करके या उत्तरकी ओर सुख करके

बैठे फिर ब्रह्माकौ ऐसे ध्यान करे मानों रजोगुणसहित लाल है
रंग जाकौ और (अ) वर्ण स्वर रूप जाकौ । इति ॥ ४७ ॥

इडया पूरयेद्वायुं मात्रया षोडशैः सुधीः ॥

पूरकान्ते कुंभकाद्ये कर्तव्यस्तूडियानकः ॥ ४८ ॥

अर्थ—नाकके वाये रंध्र (छेद) सों सोलह बेर जपतौ
भयो (अं) या मंत्रको वायुकों खेंचै और वाही समय
कुंभक (रोकवे) के पहलें पूरक (वायु खेंचवे) के पीछें उड्डी-
यान करनो चाहिये ॥ ४८ ॥

सत्त्वमयं हरिं ध्यात्वा उकारं कृष्णवर्णकम् ॥

चतुःषष्ट्या च मात्रया कुंभकेनैव धारयेत् ॥ ४९ ॥

अर्थ—फिर सत्त्व (गुण) मय हरि (विष्णु) को ध्यान
करै उकाररूप कारो है रंग जाकौ चौसठ बेर जप (मनसे)
करतौ भयो नाकके छेदनसों वायु ठेरावे ॥ ४९ ॥

तमोमयं शिवं ध्यात्वा मकारं शुक्लवर्णकम् ॥

द्राविंशन्मात्रया चैव रेचयेद्विधिना पुनः ॥ ५० ॥

अर्थ—फिर तमो (गुण) मय शिव (महादेव) तिनको
ध्यान करनो और मकार जो सुपेद रंग ताकों बत्तीस बेर
जपके फिर विधिसो तथा (द्विज) निकारे (नाकको) दाँये
छेदसों ॥ ५० ॥

पुनः पिंगलयापूर्य कुंभकेनैव धारयेत् ॥

इडया रेचयेत्पश्चात्तद्बीजेन क्रमेण तु ॥ ५१ ॥

अर्थ—पीछें नाकके दाँये छेदसों वायुकों खेंचे घडावत

दोनों छेदनसों रोकै और नाकके बांये छेदसों पवनकों निकार
दे पहले जो बीज कह आये हैं तिनके क्रमसों ॥ ५१ ॥

अनुलोमविलोमेन वारं वारं च साधयेत् ॥

पूरकांते कुंभकांतं धृतं नासापुटद्वयम् ॥

कनिष्ठानामिकांगुष्ठैस्तर्जनीमध्यमां विना ॥ ५२ ॥

अर्थ—फिर बेर बेर बायें छेद (नाकके) सों खेंचे और
नाकके दायें छेदसों निकारे फिर दांये छेदसों पवन खेंचै और
बांये नाकके छेदसों निकारे (और दोनों छेदसों रोकै) खेच-
वेके अंततक और रोकवेके अंततक दोनों नाकके छेदनकों छोटी
अंगुरिया तथा छोटीके पासकी और अँगूठा और अँगूठाके
पासकी अंगुरिया इन चारोंसो नाककों पकरै ॥ ५२ ॥

प्राणायामं च निर्गर्भं विना बीजेन जायते ॥

एकादिशतपर्यंतं पूरकुंभकरेचनम् ॥ ५३ ॥

अर्थ—निर्गर्भ जो प्राणायाम दूसरी विधि कह आये, वो
विना बीज (मंत्र) के कीयो जाय है सो पूरक कुंभकरेचक ये
तीन प्राणायाम मिलके एक सौ बारह मात्रातक हैं ॥ ५३ ॥

उत्तमा विंशतिमात्रा मात्रा षोडशमध्यमा ॥

अधमा द्वादशी मात्रा प्राणायामास्त्रिधा स्मृताः ५४ ॥

अर्थ—उत्तम तौ बीस मात्रावारौ है और मध्यम सोलह
मात्रावारौ है और अधम बारह मात्रावारौ ऐसे प्राणायाम तीन
तरहकौ है ॥ ५४ ॥

अधमाजायते घर्म मेरुकंपं च मध्यमात् ॥

उत्तमाच्च भूमित्यागस्त्रिविधं सिद्धिलक्षणम् ॥ ५५ ॥

अर्थ--अधम प्राणायामसो घर्म (पसीना) होइ है और

मध्यम प्राणायामसो पीठ काँपवे लगजाय है और उत्तम प्राणा-

यामसो देह धरतीसो अलग अर्थात् (आकाश) में पॉचजाय

ऐसें तीन तरह प्राणायामकी सिद्धिके लक्षण हैं ॥ ५५ ॥

प्राणायामात् खेचरत्वं प्राणायामाद्भोगनाशनम् ॥

प्राणायामाद्बोधयेच्छक्तिं प्राणायामान्मनोन्मनी ॥

आनंदो जायते चित्ते प्राणायामी सुखी भवेत् ॥ ५६ ॥

अर्थ--प्राणायाम साधनसो आकाशमें उडवेकी (ताकत)

प्राप्ति होइ है और प्राणायामसो प्राण (देह) के तथा (प्राण-

पवन) के रोग नाश होइ हैं और प्राणायामसो बोध (बुद्धि)

रूप शक्ति (ताकत) होइ है और प्राणायामसो ज्ञान लाभ

होइ है और प्राणायामसो मनको आनंद होइ है और प्राणायाम

करवेवारो सुखी होइ है ॥ ५६ ॥

अथ सूर्यभेदककुंभकविधिः ।

कथितं सहितं कुंभं सूर्यभेदनकं शृणु ॥

पूरयेत्सूर्यनाड्या च यथाशक्ति बहिर्मरुत् ॥ ५७ ॥

घारयेद्बहुयत्नेन कुंभकेन जलंधरैः ॥

यावत्स्वेदो नखकेशाभ्यां तावत्कुर्वतु कुंभकम् ॥ ५८

अर्थ--पहले सहित कुंभक तो कह आये अब सूर्यभेद

(प्राणायाम) को सुन पहले नाकके दाये छेदसो (वायु)

पवनकों खेंचै जितनी ताकत हौ तितनी और जालंधर (मुद्रा-
कों) जतनसों धारण करै और नाकके दोनों छेदसों पवनको
रोकै रहै जबतक नख और बारसों पसीना न आवै तबतक
धारण करै ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

प्राणोपानः समानश्चोदानव्यानौ तथैव च ॥

नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजयः ॥ ५९ ॥

अर्थ—प्राण (हृदयमें रहवेवारौ पवन) अपान, समान,
उदान, व्यान ये पांच तरहके पवन अंगमें रहै हैं और नाग,
कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय ये पांच तरहके पवन अंगसों
बाहर रहै हैं ॥ ५९ ॥

हृदि प्राणो वहेन्नित्यमपानो गुदमंडले ॥

समानो नाभिदेशे तु उदानः कंठमध्यगः ॥ ६० ॥

व्यानो व्याप्य शरीरे तु प्रधानाः पंच वायवः ॥

प्राणाद्याः पंच विख्याता नागाद्याः पंच वायवः ॥ ६१ ॥

अर्थ—प्राणपवन हृदयमें रहे है नित्य और अपान (वायु)
गुदमंडलमें रहे है और समानपवन टूंडीके देशमें रहे है और
उदान (पवन) कंठके भीतर रहे है और व्यान (पवन) सवरे
शरीरमें रहे है ये पांच वायु (पवन) प्रधान है और नाग आदि
वायु पांचौ अप्रधान हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥

तेषामपि च पंचानां स्थानान्यपि वदाम्यहम् ॥

उद्गारे नाग आख्यातः कूर्मस्तून्मीलने स्मृतः ॥ ६२ ॥

कृकलः क्षुत्कृते ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्भणे ॥

न जहाति मृते क्वापि सर्वव्यापी धनंजयः ॥ ६३ ॥

अर्थ—वे पांचौ तरहके पवन जा जा जगह हैं वे हम कहें हैं नागनामको पवन डकार लैवेमें आवे है और कूर्मनामको पवन आंखकी पलक मीचवेखोलवेमें है और कृकर नामको पवन छीकमें है और हिचकीमें देवदत्तनामको पवन है सो जंभा-इमें है और धनंजयनामकी पवन मरे पीछे तक अंगमें रहे है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

नागो गृह्णाति चैतन्यं कूर्मश्चैव निमेषणम् ॥

क्षुधा तृट् कृकरश्चैव जृम्भणं चतुर्थेन तु ॥

भवेद्धनंजयाच्छब्दं क्षणमात्रं न निःसरेत् ॥ ६४ ॥

अर्थ—नाग (नामको पवन) चैतन्यता (हुसयारी) को ग्रहण करै है और कूर्म (नामको पवन) आंखोंकी पलकोंमें रहता है और कृकर (नामको पवन) भूँख प्यासी और देव-दत्त नामको (पवन) उवासीको ग्रहण करै है और धनंजय (नामको पवन) अंगसों एक क्षण बाहर नहीं होइ है और बोलवे (वगैरे) का काम होता है ॥ ६४ ॥

सर्वे ते सूर्यसंभिन्ना नाभिमूलात्समुद्धरेत् ॥

इडया रेचयेत्पश्चाद्धैर्येणाखंडवेगतः ॥ ६५ ॥

पुनः सूर्येण चाकृष्य कुंभयित्वा यथाविधि ॥

रेचयित्वा साधयेत्तु क्रमेण च पुनः पुनः ॥ ६६ ॥

अर्थ—सबरे सूर्यभेदक (प्राणायाम) टूंडीकी जडसों उठा-

यकर पीछे धीरजके संग बडे वेगसों नाकके वाँये छेदसों पवन
निकार दे फिर नाकके दाँये छेदसों पवनको खेंचे और दोनों
नाकके छेदसों रोंके विधिसहित ऐसेही खेंचे और रोके बेर-
बेर क्रमसों ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

अथ सूर्यभेदककुंभकफलम् ।

कुंभकः सूर्यभेदस्तु जरामृत्युविनाशकः ॥

बोधयेत्कुंडलीं शक्तिं देहानलविवर्द्धनः ॥

इति ते कथितं चंडं सूर्यभेदनमुत्तमम् ॥ ६७ ॥

अर्थ—सूर्यभेदक कुंभक बुढापौ तथा मौतको नाश करै
है और कुंडलीशक्तिको तेज करै है और अंगस्थ अग्निको
बढावै है हे चंडकापालि ! यह सूर्यभेदक उत्तम प्राणायाम
संपूर्ण भयो ॥ ६७ ॥

अथ उज्जयीकुंभकविधिः ।

नासाभ्यां वायुमाकृष्य वायुं वक्रेण धारयेत् ॥

हृद्गुलाभ्यां समाकृष्य मुखमध्ये च धारयेत् ॥ ६८ ॥

अर्थ—नाकसों पवनको खेंचकर मुखमें धरके रोके और
हृदय और कंठके पवनको खेंचकर मुखके (वायुके) बीच
(मिलायके) धारण करै ॥ ६८ ॥

मुखं प्रक्षालय संवेद्य कुर्याज्जालंधरं ततः ॥

आशक्तिं कुंभकं कृत्वा धारयेदविरोधतः ॥ ६९ ॥

अर्थ—तब मुख धोयके वंदनाकरके जालंधरमुद्रा तबतक
करै और कुंभकप्राणायाम (वायुको रोकनों) तबतक करै

जबतक बल रहे तबतक धारण करै रहै और निकार देवे ॥ ६९

अथ उज्जायीकुंभकफलम् ।

उज्जायीकुंभकं कृत्वा सर्वकार्याणि साधयेत् ॥

न भवेत्कफरोगं च क्रूरवायुरजीर्णकम् ॥ ७० ॥

आमवातं क्षयं कासं ज्वरप्लीहा न विद्यते ॥

जरामृत्युविनाशाय चोज्जायीं साधयेन्नरः ॥ ७१ ॥

अर्थ—उज्जायीकुंभक (प्राणायामकौ रोकनो) सबरे कामनको साथै है और कफके रोग नहीं होइ हैं वादीको कोप तथा तापतिष्ठी नहीं रहे है और बुढापौ तथा मौतको नाश करै है जो मनुष्य उज्जायीकुंभक (प्राणायाम) को साथै है ताकै ॥ ७० ॥ ७१ ॥

अथ शीतलीकुंभकविधिः ।

जिह्वया वायुमाकृष्य उदरे पूरयेच्छनैः ॥

क्षणं च कुंभकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत्पुनः ॥ ७२ ॥

अर्थ—जीभसौ पवनको खेंचकर पेटमें हौले हौले भरले फिर क्षण (पलक) भर रोकके पीछे नाकसो निकार दे यह शीतलीकुंभक प्राणायामकी विधि है ॥ ७२ ॥

अथ शीतलीकुंभकफलम् ।

सर्वदा साधयेद्योगी शीतलीकुंभकं शुभम् ॥

अजीर्णकफपित्तं च न च तस्य प्रजायते ॥ ७३ ॥

अर्थ—सदाही साधनो चाहिये योगीजननको शुभ जो

शीतलीकुंभक (प्राणायाम) सों कफ पित्त अजीर्णके रोग
कभी नहीं होइ हैं ॥ ७३ ॥

अथ भस्त्रिकाकुंभकविधिः ।

भस्त्रैव लोहकारणां यथा क्रमेण संभ्रमेत् ॥

तथा वायुं च नासाभ्यामुभाभ्यां चालयेच्छनैः ७४ ॥

अर्थ—जैसे लुहारकी धोंकनी वेर वेर वायु (पवन) को
खेंचे (छोडे) है वैसेही पवनको नाकके दोनों छेदनसों खेंचके
पेटमें हौले हौले भरे ॥ ७४ ॥

एवं विज्ञातिवारं च कृत्वा कुर्याच्च कुंभकम् ॥

तदन्ते चालयेद्वायुं पूर्वोक्तं च यथाविधि ॥ ७५ ॥

त्रिवारं साधयेदेनं भस्त्रिकाकुंभकं सुधीः ॥

न च रोगं न च क्लेशमारोग्यं च दिने दिने ॥ ७६ ॥

अर्थ—ऐसे बीस वेर खेंच करके कुंभक (प्राणायाम) रोकनों
पवनकों ता पीछे पहले जैसी विधिसों कह आये वैसेही वायुको
निकार दे ऐसे बुद्धिमान् तीन वेर याको साधि भस्त्रिका कुंभक
(नामके प्राणायामको) ताके न रोग होय न क्लेश होय और
नित्यप्रति आरोग्य रह्यो भावै अर्थात् मरे नहीं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

अथ भ्रामरीकुंभकविधिः ।

अर्द्धरात्रिगते योगी जंतूनां शब्दवर्जिते ॥

कर्णौ पिधाय हस्ताभ्यां कुर्यात्पूरककुंभकम् ॥ ७७ ॥

अर्थ—जब आधी रात बीत जाय तब योगी (जन)

एकान्त जगह जहां जीवजंतुकोभी बोल न सुन पडतौ होय
तहां बैठ दोनों हाथनसो कान मूंदकर पूरक (खेंचनों) कुंभक
रौकनौ प्राणायामको करै ॥ ७७ ॥

शृणुयादक्षिणे कर्णे नादमंतर्गतं शुभम् ॥

प्रथम झिंजीनादं च वंशीनादं ततः परम् ॥ ७८ ॥

मेघझझरभ्रमरीघंटाकांस्यं ततः परम् ॥

तुरीभेरीमृदंगादिनिनादानकडुंदुभिः ॥ ७९ ॥

अर्थ- भीतरका जो नाद (सुर, आवाज) है सुंदर उसको
दांये कानसों सुने वह पहलें झींशुरकोसो नाद (सुर) मालूम
होइगौ फिर वंसीकौसो शब्द होइगौ फिर तासों परें बादरकी
गर्जनासी होइगी फिर झौंझकीसी आवाज आवैगी फिर भौरी-
कोसो घोष होइगो और वासों परे घंटा तथा काँसेके पात्र-
केसो घोष होइगौ फिर तुरईकौसो शब्द तथा भेरी मृदंग और
नगाडोंकोसो घोष सुन परेगौ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

एव नानाविधं नादं जायते नित्यमभ्यसात् ॥

अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ८० ॥
ध्वनेरंतर्गतं ज्योतिर्ज्योतिरेतर्गतं मनः ॥

तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥

एवं च भ्रामरी सिद्धिः समाधिसिद्धिमाप्नुयात् ॥ ८१ ॥

अर्थ- ऐसे नानातरहके राग (सुर) रोजके अभ्याससों
सुनवेमें आवे हैं और वह शब्द अपने आपही होता है वा
शब्दकी अद्भुत ध्वनि हैं और वाही ध्वनिसों ज्योति पैदा है

और ज्योतिके अंतर्गत मन है और तब मन वामें मिल जाय है वही परम (श्रेष्ठ) भगवान् विष्णुको परम पद है ऐसी तरह आमरी (कुंभक) सों समाधिसिद्धि हो जाय है ॥ ८० ॥ ८१ ॥

जपादष्टगुणं ध्यानं ध्यानादष्टगुणं तपः ॥

तपसोऽष्टगुणं गानं गानात्परतरं नहि ॥ ८२ ॥

अर्थ—जपसो आठगुणों (मन) ध्यानमें (लगेहै) और ध्यानसो आठगुणो (मन) तपमें और तपसों आठगुणो (मन) गायवेमें गायवेसों परें और कोईभी नहीं है ॥ ८२ ॥

अथ मूर्च्छाकुंभकविधिः ।

सुखेन कुंभकं कृत्वा मनश्च ध्रुवोरंतरम् ॥

संत्यज्य विषयान्सर्वान्मनोमूर्च्छासुखप्रदम् ॥

आत्मनि मनसो योगादानंदो जायते ध्रुवम् ॥ ८३ ॥

अर्थ—सुखसों कुंभक (प्राणायाम) करके और मनकों मूर्च्छाके बीचमें (दृष्टि) द्वारा लगाय देवे और सबरे विषयनकों छोडके मनकों सुखके करवेवारौ मूर्च्छाकी तरह कर देवे और मनके योगसों (परमात्मा) आत्मामें (लय होयके) जरूर आनंद होय है ॥ ८३ ॥

अथ केवलीकुंभकविधिः ।

हंकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः ॥

षट्शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविंशतिः ॥

अजपां नाम गायत्रीं जीवो जयति सर्वदा ॥ ८४ ॥

अर्थ—श्वास पवन जब भीतरसों बाहर आवै है तब (हं)

यह वर्ण बोल्यो जाय है और जब श्वास भीतरको जाय है तब (सः) वर्ण बोल्यो जाय है ये दोनों वर्णन समूह इक्कीस हजार छह सौ दिन रातमें बोले (श्वास लिये) जाय हैं । इन दोनों वर्णोंका निदान तंत्रकारने ऐसैं कियो है कि (हं) शिव (आनंद) है और (सः) शक्ति है तासों याकों अजपा नाम गायत्री कहें हैं और सबही जीव जपें हैं ॥ ८४ ॥

मूलाधारे यथा हंसस्तथा हि हृदि पंकजे ॥

तथा नासापुटे द्वंद्वे त्रिविधं संगमागमम् ॥ ८५ ॥

अर्थ—लिंग और गुदाके बीचमें हृदयकमल तथा नाकके दोनों छेदमें और इडापिंगला नाडीनमें इन तीनों जगहमें (अजपाकौ अपने आप) निकसनो धसनो होयो करै है ॥ ८५ ॥

षण्णवत्यंगुलीमानं शरीरं कर्मरूपकम् ।

देहाद्बहिर्गतो वायुः स्वभावो द्वादशांगुलिः ॥ ८६ ॥

गायने षोडशांगुल्या भोजने विंशतिस्तथा ॥

चतुर्विंशांगुलिः प्रस्थो निद्रायां त्रिंशदंगुलिः ॥

मैथुने षट्त्रिंशदुक्तं व्यायामे च ततोऽधिकम् ॥ ८७ ॥

अर्थ—वायु छह अंगुलिके समान शरीरके कर्मकौ रूप है

और देहसों बाहिर निकरे पीछें पवनकौ स्वभाव बारह अंगुलिकौ होइ है और गायवेमें सोलह अंगुलि और भोजनमें बीस अंगुलि और मार्ग चलवेमें चौबीस अंगुलि और नींदमें तीस अंगुलि और रति (विषय) में छत्तीस कहे और परिश्रम सो अधिक होइ है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

स्वभावेऽस्य गते न्यूनं परमायुः प्रवर्द्धते ॥

आयुःक्षयोऽधिके प्रोक्तो मारुते चांतराद्गते ॥ ८८ ॥

अर्थ—स्वभाव (अपने भाव) सों जो इनकी गति (चालनो) थोरो होइ तौ परमायु (अवस्था उमर) बढ़े और अंतरगत पवन (श्वास) बहुत चले तौ उमर घट जाय ऐसा योगिजन कहे हैं ॥ ८८ ॥

तस्मात्प्राणे स्थिते देहे मरणं नैव जायते ॥

वायुना घटसंबंधे भवेत्केवलकुंभकम् ॥ ८९ ॥

अर्थ—जबतक प्राणवायु (हृदयमें रहवेवारौ पवन) अंगमें रहे है तबतक मौत नहीं आवै है सों या अंगकी रक्षाके सम्बन्धमें वा प्राणपवनके संग केवल कुंभक (प्राणायाम) है ॥ ८९ ॥

यावज्जीवो जपेन्मंत्रमजपासंख्यकेवलम् ॥

अद्यावधि धृतं संख्याविभ्रमं केवलीकृते ॥ ९० ॥

अब इहि कर्तव्यः केवली कुंभको नरैः ॥

केवली चाजपासंख्या द्विगुणा च मनोन्मनी ॥ ९१ ॥

अर्थ—मनुष्य जबतक जीवे तबतक केवल अजपाकों संख्यावत जपतौ है जैसी पहलें संख्या कर आये तासों विभ्रम और केवली करैवे (सो सिद्धि होइ है) तासों नरोंकों केवलीही (प्राणायाम) करना चाहिये और अजपाकों दूनी कर केवली करे तौ मन बडौ प्रसन्न हो जाय है ॥ ९० ॥ ९१ ॥

नासाभ्यां वायुमाकृष्य केवलं कुंभकं चरेत् ॥

एकादिकचतुःषष्टं धारयेत्प्रथमे दिने ॥ ९२ ॥

अर्थ—नाक (के दोनों छेदन) सों पवन खेंचके एक खाली (रोकनों) कुंभक करै और पहले दिन जबतक (अजपा) चौसठ वेर पूरी न होई तबतक धारण करतौ रहै ॥ ९२ ॥

केवलीमष्टधा कुर्याद्यामे यामे दिने दिने ॥

अथवा पंचधा कुर्याद्यथा तत्कथयामि ते ॥ ९३ ॥

अर्थ—पहलें कह्यौ भयो केवलीकुंभकको रोज दिनमें आठवेर करनों अथवा आठ प्रहरमें आठ वार करनों तथा प्रतिदिन पांचवार (साधन करनों चाहिये) जैसो हम कहते हैं तैसै ॥ ९३ ॥

प्रातर्मध्याह्नसायाह्ने मध्ये रात्रिचतुर्थके ॥

त्रिसंध्यमथवा कुर्यात्स समाने दिने दिने ॥ ९४ ॥

अर्थ—सवेरे दुपहर संध्या और आधीरातके चौथे प्रहरमें अथवा तीनों संध्यानमें ठीक २ समयपै करै रोजकी रोज (केवली प्राणायाम जो पहलें कह आये हैं सो) ॥ ९४ ॥

पंचवारं दिने वृद्धिवारिकं च दिने

अजपापरिमाणं च यावत्सिद्धिः प्रजायते ॥ ९५ ॥

अर्थ—जबतक यह केवली कुंभक (प्राणायाम) सिद्धि न होइ तबतक रोज अजपाको प्रमाण एकवेर तथा पांचवार तथा (क्रमसों) बढातौ जाय ॥ ९५ ॥

प्राणायामं केवलीं च तदा वदति योगवित् ॥

कुंभके केवलीसिद्धौ किं न सिद्ध्यति भूतले ॥ ९६ ॥

इति श्रीघेरण्डसंहितायां घेरण्डचंडकापालिसंवादे
प्राणायामप्रयोगो नाम पंचमोपदेशः ॥ ५ ॥

अर्थ—जब मनुष्य केवलीकुंभक साधन कर लेय है तब योगविद्याकौ जानवेवारौ हो जाय है केवली कुंभक सिद्धि होयवेसों धरतीमें ऐसी कौऊ चीज नहीं है जो सिद्ध नहीं होय ॥ ९६ ॥

इति श्रीघेरंडसंहितायां श्रीमथुरास्थदक्षगोत्रोद्भवचातुर्वेद-
श्री ५ कल्याणचंद्रात्मजराधाचंद्रशर्मविरचितायां ब्रजभा-
षाभाष्यनामकब्रजभाषाटीकायां प्राणायामप्रयोगो
नाम पंचमोपदेशः ॥ ५ ॥

षष्ठोपदेशः ६ ।

अथ ध्यानयोगः ।

स्थूलं ज्योतिस्तथा सूक्ष्मं ध्यानस्य त्रिविधं विदुः ॥

स्थूलं मूर्तिमयं प्रोक्तं ज्योतिस्तेजोमयं तथा ॥

सूक्ष्मं बिंदुमयं ब्रह्म कुंडली परदेवता ॥ १ ॥

अब ध्यानयोगकों कहते हैं । तामें ध्यान तीन तरहके कह्यो हैं । स्थूल ध्यान (बडो ध्यान), ज्योति-
ध्यान (तेजकौ ध्यान) और सूक्ष्मध्यान (छोटौ ध्यान) उदा-
हरण—बडौ ध्यान तौ मूर्तिमय होई है तथा ज्योतिध्यान तेज-
मय होई है छोटौ ध्यान सवरहित ब्रह्ममय होत है तथा कुंड-
लीसो परे जो देवतासों होय है ॥ १ ॥

अथ स्थूलध्यानविधिः ।

स्वकीयहृदये ध्यायेत् सुधासागरमुत्तमम् ॥

तन्मध्ये रत्नदीपं तु सुरत्नवालुकामयम् ॥ २ ॥

अर्थ—उपरोक्त समाधिको साधके हृदयमें ऐसो ध्यान करै
मानों अमृतकौ समुद्र है ताकें बीचमें रत्न (हीरादि)
मय नामक रत्नद्वीप है और तामें रत्नमय बालुकाकी उन्नति
हो रही है ॥ २ ॥

चतुर्दिक्षु निबतरुर्वहुपुष्पसमन्वितः ॥

निंबोपवनसंकूले वेष्टितं परिखा इव ॥ ३ ॥

अर्थ—तामें चारों ओर नीमके पेड बहुत फूलोंके सहित
(शोभायमान) हो रहे हैं और वा नीमके फूलनिकी शोभा
मानों किलेकी खाई है ऐसी लखै ॥ ३ ॥

मालतीमल्लिकाजातीकेशरैश्चंपकैस्तथा ॥

पारिजातैः स्थलैः पद्मैर्गंधामोदितदिङ्मुखैः ॥ ४ ॥

अर्थ—और मालती और मल्लिका तथा चमेली केशर तथा
चंपा और वकायन स्थलकमल इनकी सुगंधसों मानों दशों
दिशा महक रही हैं ॥ ४ ॥

तन्मध्ये संस्मरेद्योगी कल्पवृक्षं मनोहरम् ॥

चतुःशाखाचतुर्वेदं नित्यं पुष्पफलान्वितम् ॥ ५ ॥

अर्थ—ताके बीचमें ऐसो ध्यान (स्मरण) योगी करे कि
एक कल्पवृक्ष है कैसो है (कल्पतरु) कि मनको हरवेवारो
तामें है चार शाखा (डारी) चारों वेद तामें नित्यकर्मादि है
फलफूलसहित ॥ ५ ॥

भ्रमराः कोकिलास्तत्र गुंजांति निगदंति च ॥

ध्यायेत्तत्र स्थिरो भूत्वा महामाणिकमंडपम् ॥ ६ ॥

अर्थ—तिनमें भ्रमर (कर्म) कोकिला (सज्जन साधु) पढ

रहे हैं और उपदेश कर रहे हैं फिर वा (पेड) कल्पतरुके (नीचे) स्थिर रहके ऐसी ध्यान करै मानों भाणिक्यको मंडप है ॥ ६ ॥

तन्मध्ये तु स्मरेद्योगी पर्यंकं सुमनोहरम् ॥

तत्रेष्टदेवतां ध्यायेद्यद्भ्यानं गुरुभाषितम् ॥ ७ ॥

अर्थ—तामें ऐसी स्मरण करै कि मानों एक पलंग (रत्न-मय) मनकों हरवेवारौ तामें अपने इष्टदेवको ध्यान करे जो गुरु-जीनें बताया होई ॥ ७ ॥

यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् ॥

तद्रूपं ध्यायते नित्यं स्थूलध्यानमिदं विदुः ॥ ८ ॥

अर्थ—और वा देवके वाके रूपके समान गहनें तथा अस-वारी जाननी वैसौही वाके रूपको ध्यान करै याकों स्थूल-ध्यान कहें हैं ॥ ८ ॥

अथ प्रकारांतरस्थूलध्यानविधिः ।

सहस्रारे महापद्मे कर्णिकायां विचिंतयेत् ॥

विलग्नसहितं पद्मं द्वादशैर्दलसंयुतम् ॥ ९ ॥

अर्थ—ब्रह्मरंध्रमें सहस्रार नामक एक सहस्र (हजार) दलको कमल है तहां योगी याही रूपसों ध्यान करै किंवा महाकम-लकी पत्तीनके बीचमें जो कर्णिका है वाहमें बारह पत्ताको कमल है ॥ ९ ॥

शुक्लवर्णं महातेजो द्वादशैर्बीजभूषितम् ॥

हसक्षमलवरयुंहसखप्रें यथाक्रमम् ॥ १० ॥

अर्थ—वो (बारह दल) कमलको सुपेदरंग है और तेजसों

चमकै है और वाके बारह पत्तानमें क्रमसों यह बीज (मंत्र)
दीखें हैं ह, स, क्ष, म, ल, व, र, यू, ह, स, ख, फे, यह
बीजमंत्र है ॥ १० ॥

नन्मध्ये कर्णिकायां तु अकथादि रेखात्रयम् ॥

हलक्षकोणसंयुक्तं प्रणवं तत्र वर्तते ॥ ११ ॥

अर्थ—तामें जो कर्णिका है ताके मध्यमें अ, क, थ ये
तीन अक्षर तीन रेखा और ह, ल, क्ष, ये तीन अक्षरनसों मिले
जये तथा बीचमें उँकार विराजै है ॥ ११ ॥

नादबिंदुमयं पीठं ध्यायेत्तत्र मनोहरम् ॥

तत्रोपरि हंसयुग्मं पादुका तत्र वर्तते ॥ १२ ॥

अर्थ—योगी ऐसो ध्यान करै मानों वहां नादबिंदुमय एक
मनोहर सिंहासन बिछौ है तापै एक जोडा हंसकौ बैठ्यौ है
और खडामहू वर्ते हैं ॥ १२ ॥

ध्यायेत्तत्र गुरुं देवं द्विभुजं च त्रिलोचनम् ॥

श्वेतांबरधरं देवं शुक्लगंधानुलेपनम् ॥ १३ ॥

अर्थ—और तहां ऐसे जो गुरुदेवको ऐसो ध्यान करै मानो
दो तौ तिनकी भुजा हैं और तीन हैं आंख जिनकी सुपेद
धारण किये हैं कपडा जिनने सुपेदही है रंग जिनकौ और शुक्ल-
गंध कियो है लेपन ॥ १३ ॥

शुक्लपुष्पमयं मालयं रक्तशक्तिसमन्वितम् ॥

एवंविधं गुरुं ध्यानात् स्थूलध्यानं प्रसाध्यति ॥ १४ ॥

अर्थ—और फूलनकी माला पहरे हैं लाल रंगकी शक्ति

(तिय) के संग राजें हैं और ऐसे गुरुकौ ध्यान करवेसों स्थूल ध्यान साधित होता है ॥ १४ ॥

अथ ज्योतिर्ध्यानविधिः ।

कथितं स्थूलध्यानं तु तेजोध्यानं शृणुष्व मे ॥

यद्ब्रूयानेन योगसिद्धिरात्मप्रत्यक्षमेव च ॥ १५ ॥

अर्थ—स्थूल ध्यान तौ कह्यौ अब तेजोध्यान सुन जाके ध्यानसों योगकी सिद्धि आत्मपरमात्मा प्रगट (जाहिर) हो जाय है ॥ १५ ॥

मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगाकाररूपिणी ॥

जीवात्मा तिष्ठति तत्र प्रदीपकलिकाकृतिः ॥

ध्यायेत्तेजोमयं ब्रह्म तेजोध्यानं परात्परम् ॥ १६ ॥

अर्थ—मूलाधार (गुदा) और लिंगमूलके बीचकी जगहमें कुंडलिनी (शक्ति) सापके रूप तथा आकारसी है वहांही दीयाकी जोतकी तरह जीवात्मा (परमेश्वर) विराजमान है तामें ज्योतिर्मय (तेजसहित) जो परमेश्वर है ताके तेजकौ ध्यान परात्पर है ॥ १६ ॥

अथ प्रकारांतरेण ज्योतिर्ध्यानविधिः ।

भ्रुवोर्मध्ये मनोर्ध्वे च यत्तेजः प्रणवात्मकम् ॥

ध्यायेज्ज्वालावलीयुक्तं तेजोध्यानं तदेव हि ॥ १७ ॥

अर्थ—दोनों भौंहनके बीचमें तथा मनके ऊपर जो ॐकार मय तेजावलीयुक्त जो शिखा है वही तेजोध्यान है अर्थात् ज्योतिर्ध्यान कह्यौ जाय है ॥ १७ ॥

सूक्ष्मध्यानविधिः ।

तेजोध्यानं श्रुतं चंड सूक्ष्मध्यानं वदाम्यहम् ॥

बहुभाग्यवशाद्यस्य कुंडली जागृता भवेत् ॥ १८ ॥

अर्थ—हे चंडकापालि ! तेजोध्यान तौ सुन्यो अब सूक्ष्म-
ध्यान कहों हों जाकी कुंडलिनी जाग उठै है वह बडौ भाग-
वान् है ॥ १८ ॥

आत्मनः सह योगेन नेत्रंध्राद्विनिर्गता ॥

विहरेद्राजमार्गं च चंचलत्वान्न दृश्यते ॥ १९ ॥

अर्थ—तब वो आंखनिके छेदनसों निकसकें आत्मासो
मिलकें राजमार्गमें विहार करवे लगै है और ऐसी चंचल हो
जाय है कि काहूकों नहीं देखै है ॥ १९ ॥

शांभवीमुद्रया योगी ध्यानयोगेन सिध्यति ॥

सूक्ष्मध्यानमिदं गोप्यं देवानामपि दुर्लभम् ॥ २० ॥

अर्थ—तब योगी शांभवीमुद्राके योगसों ध्यान करै तौ
सिद्धि हो जाय है यह सूक्ष्मध्यान बडोही गुप्त है और देवता-
नकोंभी दुर्लभ है ॥ २० ॥

स्थूलध्यानाच्छतगुणं तेजोध्यानं प्रचक्षते ॥

तेजोध्यानाल्लक्षगुणं सूक्ष्मध्यानं परात्परम् ॥ २१ ॥

अर्थ—स्थूलध्यानसों सौगुनों तेजोध्यान कह्यौ जाय है और
तेजोध्यानसों लाखगुनों सूक्ष्मध्यान है तथा वह ध्यान दूरसोंभी
दूर हैं ॥ २१ ॥

इति ते कथितं चंड ध्यानयोगं सुदुर्लभम् ॥

आत्मा साक्षाद्भवेद्यस्मात्तस्माद्भयानं विशिष्यते २२

इति श्रीघेरंडसहितायां घेरंडचंडकापालिसंवादे

घटस्थयोगे ध्यानयोगो नाम षष्ठोपदेशः ॥ ६ ॥

अर्थ—हे चंडकापालि ! मैंने तोसों यह सुदुर्लभ ध्यानयोग कही जासों आत्मा प्रकट हो जाय है यहाँसों ध्यानयोग सबसे जादा है ॥ २२ ॥

इति श्रीघेरंडसंहितायां श्रीमथुरादक्षगोत्रोद्भवचातुर्वेदिशर्म-

श्री १०५ बडेचौबेश्रीकल्याणचंद्रात्मजाभिषग्राधाचं-

दविरचितायां व्रजभाषाभाष्यनामव्रजभाषाटीकायां

ध्यानयोगो नाम षष्ठोपदेशः ॥ ६ ॥

सप्तमोपदेशः ७ ।

अथ समाधियोगविधिः ।

समाधिं च परं योगं बहुभाग्येन लभ्यते ॥

गुरोः कृपाप्रसादेन प्राप्यते गुरुभक्तितः ॥ १ ॥

अर्थ—समाधियोगसौ परें कोऊ योग है नहीं और वाकों बहुत भाग्यतासों पावै है और गुरुकी कृपा तथा भक्तिसों तथा बडे अनुग्रहसों मिलै है ॥ १ ॥

विद्याप्रतीतिः स्वगुरुप्रतीतिरात्मप्रतीतिर्मनसः प्रबोधः ॥

दिनेदिनेयस्य भवेत्स योगी सुशोभनाभ्यासमुपैतिसद्यः २

अर्थ—जाकों विद्यामें (योगमें) विश्वास होइ और अपने

गुरुकी प्रतीत राखै और आत्मामें विश्वास राखै और मनको बोधकर राखै है वोही योगी रोज सुंदर अभ्यासको प्राप्त होइ ॥ २ ॥

व्याद्भिन्नं मनः कृत्वा ऐक्यं कृत्वा परात्मनि ॥

समाधि तद्विजानीयान्मुक्तसंज्ञो दशादिभिः ॥ ३ ॥

अर्थ--अंगसों अलग मन करके (सबसो अलग) जो परमात्मा है तामें एकाग्र मन लगावै वाको समाधि जाननी यह दश (अवस्थादि) छूट जाय अर्थात् मुक्ति हो जाय है ॥ ३ ॥

अहं ब्रह्म न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् ॥

सच्चिदानंदरूपोऽहं नित्यमुक्तः स्वभाववान् ॥ ४ ॥

अर्थ--तब ऐसो विचारे कि मानों मैंही ब्रह्म हों दूसरो कोई नहीं है शोक जो होयो करे हैं उनका भागी मैं नहीं हूं तासों मैं निश्चय ब्रह्मसों तीनों कालमें एकसम रहूं तथा सांच झूठको जानों हूं चैतन्य आनंदमय सबसों अलग अपने भावसों मुक्त हूं ॥ ४ ॥

अथ समाधिभेदाः ।

शांभव्या चैव खेचर्या भ्रामर्या योनिमुद्रया ॥

ध्यानं नादं रसानंदं लयासिद्धिश्चतुर्विधा ॥ ५ ॥

पंचधा भक्तियोगेन मनोमूर्च्छा च षड्विधा ॥

षड्विधोयं राजयोगः प्रत्येकमवधारय ॥ ६ ॥

अर्थ--अब समाधियोगके भेद कहे हैं । ध्यानयोग समाधिमें शांभवीमुद्रा और (नादयोग समाधिमें खेचरीमुद्रा) और







